



MICRO PLAN OF NON – ATTAINMENT CITY NOIDA

Submitted on behalf of State of Uttar Pradesh



MAY, 2021

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010

❧CONTENTS ❧

Sl.No.	Noida City	Page No.
I	Basic Information	01-01
II	Capacity Building, Monitoring Network and Source Apportionment	02-05
III	Public Outreach	06-08
IV	Road Dust and Construction & Demolition	09-18
V	Vehicles	19-25
VI	Industries	26-31
VII	Waste and Biomass- Dumping and Burning	32-38
VIII	Air Quality Data	39-39
IX	Template A-M	40-56
X	Annexure	57-125
1.	<i>Annex -CB 1</i>	58-59
2.	<i>Annex -CB 2</i>	60-62
3.	<i>Annex -CB 3</i>	63-70
4.	<i>Annex -CB 4</i>	71-84
5.	<i>Annex -PO 1</i>	85-87

6.	<i>Annex -RD 1</i>	88-88
7.	<i>Annex -RD 2</i>	89-97
8.	<i>Annex -RD 3</i>	98-102
9.	<i>Annex -C&D 1</i>	103-105
10.	<i>Annex -VE 1</i>	106-116
11.	<i>Annex -VE 2</i>	117-117
12.	<i>Annex -VE 3</i>	118-119
13.	<i>Annex -IP 1</i>	120-120
14.	<i>Annex -WB 1</i>	121-124
15.	<i>Annex -WB 2</i>	125-125

Basic Information

Name of Non Attainment City

Sate/ Union Territory

Name of Nodal Officer at PCB/ PCC Email Id

Contact Number

Date till which progress is submitted

NOIDA

UTTAR PRADESH

Chief Environmental Officer, Lab ceolab@uppcb.in

91-5222 720832

May, 2021

Action Point Code	Sector	Total Number of Actions	Number of Actions Completed	Number of Actions Under Porgress
CB	CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE	8	3	5
PO	PUBLIC OUTREACH	7	7	0
RD/ C&D	ROAD DUST AND CONTRUCTION &	24	15	9
VE	VEHICLES	19	17	2
IP	INDUSTRIES	20	20	0
BB/DF	WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND	20	18	2
AQ	AIR QUALITY DATA	9	9	0

CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE APPORTIONMENT

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds release d	Funds Utilize d	Additio nal Funds Requir ed
CB1	Insatllation & Commissioning of Monitoring Stations												
CB1.1	CAAQMS	<p>03 CAAQMS are required in NOIDA City as per CPCB norms. Total 03 CAAQMS installed in NOIDA by UPPCB as given below: City No. of CAAQMS NOIDA 3 Locations details: 1. Sector-125, Amity University campus 2.Sector-01, R.O. Building, UPPCB 3.Sector-116, Jal-Kal Vibhag In addition to above, 01 CAAQMS is also installed by IMD at Sector-62, Noida.</p> <p>02 Stations also installed & functional in Greater NOIDA in Knowledge Park-3 and knowledge Park-05.</p>	03 (As per CPCB Guidelines)	360 days	No	Completed	Number	Yes	Detailed Micro Plan for installation of CAAQMSs by UPPCB is attached. <u>Annex-CB-1</u>	Rs. 49.0 lacs (for 03 CAAQMS /y r. for O&M)	Rs. 49.0 lacs	Rs. 49.0 lacs	No
CB1.2	Manual Stations	<p>04 Manual Stations installed in- 1. J.P.Electroplating Ltd. 2. R.O. UPPCB Building 3. Golf course, Sector-37 4. Sabrose Ltd., Phase-2</p>	03 (As per CPCB Guideline)	360 days	No	Completed	Number	Yes	Data is available on UPPCB website. http://www.uppcb.com/ambiente_ant_quality.htm	O&M Cost of Ongoing stations are Rs. 20.72 lacs.	Rs. 20.72 lacs.	Rs. 20.72 lacs.	No
CB3	Assessment of sources												

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
CB3.1	Emission Inventory	Rapid SA/EI & CC study has been allotted to IIT Kanpur and the expected timeline for completion is June 2021. Noida has also been selected by CPCB for conducting joint comprehensive SA/CC study city in compliance of Hon'ble NGT order in OA No. 681/2018 and the details on timeline and funds shall be provided by CPCB.	100 % comprehensive EI study & SA/CC study	Timeline to be provided by CPCB, Delhi for comprehensive SA/EI & CC study.	No	June 2021 for Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity	Yes	No	Detailed Micro Plan for EI & SA is attached. Annex-CB-2.	Rs. 6.19 Lac (Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity)	Rs. 6.19 Lac (Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity)	Rs. 3.72 Lac (Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity)	No
CB3.3	Source Apportionment Study		Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity										
CB4	Training & Capacity Building												
CB4.1	Training & skill development of public officials	Road Safety Week was organised in the month of November in NOIDA	Twice/Year	As regular activity	No	Ongoing	Yes/No	Yes	Training calendar attached Annex-CB-3	Rs. 10,000	None	None	None
CB4.2	Infrastructure development (Laboratory/ AQM Cell)	AQM cell in UPPCB HQ in Lucknow and Air Lab in RO office at Noida have already been established and are functional	Already established	30 days	No	Completed	Yes/No	NA	NA	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additio nal Funds Required
CB4.4	Organization of meeting of District Environment Committee for sensitizing the Line Departments for advance preparedness of implementation of Action Plan and following action points	District level committee under the Chairmanship of District Magistrate is functional and meetings are held on monthly basis for reviewing the implementation of City Clean Air Action Plan. DEC meetings during the last quarter held on the following dates: 21-01-21 and 06.02.2021, 17.03.2021	Monthly	As regular activity	No	Ongoing	Number	Yes	Minutes of Meeting available on Board's compliance portal www.upecp.in	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds release d	Funds Utilize d	Additio nal Funds Require d
CB5	Emergency Response System	1. GRAP is applicable in the city and monitoring is done on a regular basis by DEC. 2. For the purpose of ERS to be developed by PCB, State Disaster Management Authority and Meteorological Department as per the order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019, the disaster Management Authority has requested for development of a guideline by NDMA. The matter also reviewed by CS,GoUP and a letter has been sent to NDMA, CPCB and MoEF&CC for issuance of a guideline for development of ERS for severe levels of air pollution. The response of MoEF&CC, CPCB & NDMA is awaited.	Regular Activity	1. As Regular activity 2. Timeline for iussuance of Guidelines to be provided by NDMA, MoEF& CC & CPCB	1. No 2. Yes	Ongoing	NA	yes	Letter dated 22.12.2020 written by the State to NDMA, CPCB and MoEF&CC & GRAP atr attached <u>Annex-CB-4</u> <u>Annex-CB-5</u>	Not required	Not require d	Not require d	Not require d

PUBLIC OUTREACH

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachmen t Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Addition al Funds Required
PO1	Public Outreach												
PO1.1	Daily Air Quality Public Information Dissemination System	Regular Activity, AQI data from manual monitoring station is available on UPPCB website monthly while real time data from CAAQMS is available on national portal (Sameer App) maintained by CPCB. An Air Quality Management Division has been established at UPPCB to oversee the overall air quality management activities within the state.	Daily AQI on Sameer App	15days, and thereafter, continue as regular activity	No	Regular activity	Number	URL	Detailed action taken (https://cp cb.nic.in //upload/ Download s/AQI_Bulletin)	Not required	Not required	Not required	Not required
PO1.2	Social Media Platforms	Regular Activity	Dissemination of information related to air pollution	Regular activity	No	Regular activity	text	No	No	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachmen t Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Addition al Funds Required
P01.3	Issue public advisory for prevention and control of air polltuion	Weekly AQI bulletin is published on UPPCB website. 10 bulletins have been published during the last quarter (Jan-March 2021)	regular activity	regular activity	No	regular activity	Number	URL	10 Weekly bulletins (uppcb.com/weekly-aqi.htm)	Not required	Not required	Not required	Not required
P01.4	Deeper public engagement and consultation (workshops/ programmes in schools/ colleges)	Could not be organized due to COVID-19 pandemic situation	As per schedule	As per schedule	No	regular activity	Number	Yes	Public Awareness Calender for Year 2021-22. Attached as <u>Annexure -PO-1</u>	Nil	Nil	Nil	20 lacs
P01.5	Launch mobile app to update public about status of air quality	AQI status of available on Sameer App and other than this, AQI bulletin is published on UPPCB's website on regular basis	Completed	regular activity	No	Completed	Number	URL	URL of Sammer App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpcb)	Not required	Not required	Not required	Not required
P02	Public Greivance Redressal System												

Action Point Code	Action Point	Present Staus	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachmen t Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Addition al Funds Required
PO2.1	App Based System	Swachh Vayu App has been developed by UPPCB and is operational since June 2020.The status of complaints received in Swachh Vayu App for Noida as on 15.03.2021 Total Complaints received:06 Total Complaints Resolved: 05. Total Complaints pending: 1.	regular activity	regular activity	No	regular activity	Number	No	as detailed in present status	Not required	Not required	Not require d	Not required
PO2.2	Helpline Number	Regular Activity (Noida Authority Helpline No. 0120- 2425025, 2425026 & 2425027 & Public Health Div. Related Complaint No. 9717080605)	Complete d	As regular activity	No	Complete d	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not require d	Not required

ROAD DUST AND CONTRUCTION & DEMOLITION

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attach ment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD1	Road dust												
RD1.2	Maintain potholes free roads	98% (115 Km length of road black topped /re-surfacing in the year) (Sector142-150 road, Sector 72-79 road, Noida-Gr Noida expressway, Sector-63roads, Sector -9 roads, Sector-58 road.)	115 Km (06 Road)	90 days & as regular activity afterwards.	No	Regular activity	Number	yes	Template- A is Attached. As given in Present Status	90.00 Lakh	Rs. 80.00 Lac	Rs. 80.00 Lac	Rs. 10.00 Lac yet to be released from the allocated fund
RD1.3	Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust.	90% (STP water charged at Rs. 5.00/KL) (Road wash 60 K.M./day twice a week, with 55 Nos. of water tankers. 243 K.M./day Mechanical sweeping with 08 Nos. of mechanical sweepers) (TOTAL NUMBER OF WATER TANKERS-55 for WATER SPRINKLERS, LOCATION Sector-01,06,15,16,18,33A,52,53,58,59,61,62,63,71,82,90, 100,104,137,150)	55 Nos. of water tankers. 243 K.M./day	Regular Activity	No	Regular activity	Number	yes	Template- B, C and D is Attached. As given in Present Status	Rs. 55.00 Cr.	Rs. 45.00 Cr	Rs. 45.00 Cr.	Rs. 10.00 Cr. yet to be released from the allocated fund

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
		100% (Assessment of road dust in major road of sector- 62, Noida GR. Noida expressway, sector- 142, sector-129-155 road, sector-37 to Bhangel road, phase-II near NSEZ, Sector-121, Sector-50, Sector-16 to 12/22 road and Sector-50, Parthala chowk, Sector-129 to 155 road were found dusty.)	12 major roads (3,164 gm/m ²)	17-22 August, 2020	No	Completed	Number	Yes	Study Report. <u>Annex- RD-1</u>	None	None	None	Not Required
		Regular Activity (Mechanical sweeping is carried out on MP-1, MP-2, MP-3, DSC, Expressway, Udyog marg, sector-74 to 78, Main road Phase-II roads total-243 K.M.)	Completed 213 km (65 Roads)	From October, 2020	No	Completed	Number	Yes	As given in Present Status	None	None	None	Rs. 50 lacs
		Regular Activity (55 kms/day twice a week of road night washed in this quarter)	Major roads (roads selected as per requirement) 213 km (65 Roads)	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As given in Present Status	None	None	None	Rs. 50 lacs

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD1.4	Black-topping of unpaved road	95% (115 Km length of road black topped /re-surfacing in the year) (Sector142-150 road, Sector 72-79 road, Noida-Gr Noida expressway, Sector-63 roads, Sector-9 roads, Sector-58 road. Sector-142 to 145 & Sector-150 to 155)	121 km length of 08 road	Oct-20	yes	121 km length of 08 road	Number	Yes	Template- E is Attached. As given in Present Status	Rs. 168.00 Cr.	Rs. 158.00 Cr.	Rs. 158.00 Cr.	Rs. 10.00 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD1.6	To take appropriate action to remove road dust/silt regularly by using mechanical sweepers	95% (243 K.M./day Mechanical sweeping with 08 Nos. of mechanical sweepers) (Sector-1, 6, 15, 16, 18, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 82, 90, 100, 104, 137, 150)	Regular Activity	Regular Activity	No	ongoing	Text	Yes	As given in Present Status	Rs. 20.00 Cr.	Rs. 18.00 Cr.	Rs. 18.00 Cr.	Rs. 2.00 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD1.7	End-to-end paving of the road	95% (25 K.M. roads have paving End-To-end in Sector-74 to Sector- 79)	25 km	Oct-20	Mar-21	ongoing	Number	Yes	Template- F is Attached. As given in Present Status	Rs. 10.00 Cr.	Rs. 9.00 Cr.	Rs. 9.00 Cr.	Rs. 1.00 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD1.9	Introduce water fountain at major traffic intersection	100% (06 Number of water fountains are installed in Sector-12, 15A, 26, 62, 91, 150)	Completed	90 days & as regular activity afterwards.	No	Completed	Number	yes	As given in Present Status	Rs. 89.68 Lacs	Rs. 80.00 Lac	Rs. 80.00 Lac	Rs. 9.68 Lac. yet to be released from the allocated fund

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD1.10	Widening of Roads	75% (12 K.M. road widening work completed at Sector-142 to 145 & Sector-150 to 155)	16 K.M.	Oct-20	yes	16 K.M.	Number	yes	Template- G is Attached. As given in Present Status	Rs. 150.00 Crore.	Rs. 110.00 Cr.	Rs. 110.00 Cr.	Rs. 40.00 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD1.11	Improvement of infrastructure for decongestion of road.	75% (Underpass- 04, Elevated roads-02, Parking- 07 & widening of roads-12 K.M. have completed) (04 underpass- Sector-72 and three on Noida- Greater Noida expressway. Bhagel elevated road. Parthala underpass, Drain elevated)	6 infrastructure projects	Oct-20	yes	ongoing	Number	yes	As given in Present Status	Rs. 500.00 Crore.	Rs. 350.00 Cr.	Rs. 350.00 Cr.	Rs. 150.00 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD1.12	Designing and Construction of environment friendly roads	30% (01.5 K.M. environment friendly road constructed by using waste polythene)	5 K.M.	Oct-20	yes	ongoing	Number	yes	As given in Present Status	Rs. 5.00 Crore	Rs. 1.50 Cr.	Rs. 1.50 Cr.	Rs. 3.50 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD1.15	Create Proper Pedestrian Infrastructure	85% (03 New F.O.B. and 10 K.M. footpath constructed)	03 F.O.B.	Oct-20	Mar-21	ongoing	Number	yes	As given in Present Status	Rs. 1.50 Crore	Rs. 1.20 Cr.	Rs. 1.20 Cr.	Rs. 0.30 Cr. yet to be released from the allocated fund

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD1.16	All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out.	Completed (Green belt development by Noida Authority and brick liner of kondli drain and Shahadra drain is done.)	Completed	Oct-20	No	Completed	Number	None	Urban Drain lenth around 20Km	None	None	None	Rs. 1.0 cr
RD2	Creation of green cover												
RD2.2	Creation of green buffers along the traffic corridors and their maintenance.	75% (205 K.M. dust fee zone developed with grassing on road side) 1900 ha area planted and 533 ha area to be planted in year.	2433 ha	Oct-20	yes	Ongoing	Text	yes	Template- H is Attached. As given in Present Status	Rs. 2.00 Crore	Rs. 1.50 Cr.	Rs. 1.50 Cr.	Rs. 0.50 Cr. yet to be released from the allocated fund
RD2.3	Necessary changes in byelaws- Greening of open areas, gardens,community places, schools and housing societies	As per NOIDA guidelines	Completed	Oct-20	No	Completed	Text	No	Annex-RD-2	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD2.5	Builders should leave 25%/33% area for green belt in residential colonies to be made mandatory.	As per NOIDA guidelines	Completed	Oct-20	No	Completed	Text	yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD2.7	Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan.	80% (Total area of maintained parks-1200 Acre, Total area of maintained green belt-800 acre and road side plantation1500 acre) (Total 984230 saplings were planted in year 2020 in GB Nagar) 3.0 lacs sapling to be planted in year 2021-22.	33% Tree cover in city 3.0 lacs sapling in year 2021-22	Oct-20	yes	Ongoing	Text	yes	Template- I is Attached. Annex-RD-3	Rs. 27.00 Crore	Rs. 16.00 Cr.	Rs. 16.00 Cr.	Rs. 11.00 Cr. yet to be released from the allocated fund
C&D1	Construction Activities												
C&D1.1	Ensure transportation of construction materials in covered vehicles	Regular enforcement by concerned as ongoing process. Total 168 vehicles were checked and 16 defaulter in this quarter were challaned and Rs-80,000 penalty was imposed.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
C&D1.2	Strict enforcement of CPCB guidelines for construction (use of green screens, side covering of digging sites, etc.)	<p>1. UPPCB issued EC Show-cause 2 Bulding Projects under 31 A Air Act and notice issued to 38 Constructed Building</p> <p>2. UPPCB has launched dustapp www.upecp.in/dustapp for the purpose of dust control self audit and a public notice was issued u/s 31A of Air act in the newspaper and through e-advertisement for the same</p> <p>3. The app is functional since October 2020 and 53 construction projects have submitted online self dust control audit assessment online</p>	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	yes	list of project uploaded in dust app <u>Annex-C& D-1</u>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
		<p>4. UPPCB ha also taken initiative for installation of PTZ cameras at all the major construction sites with open access to the UPPCB server. Till now, PTZ cameras have been installed at 48 construction sites</p> <p>5. Geotagging of C& D Waste alongside the roads, streets & in open plots by Physical verification is being done while collecting dust samples from major roads and streets.</p> <p>6. The physical verification was done in sector-74 to 79, sector-150 to 155, sector-142 to 144, sector-63 to 69, sector-11, 12, 22, 25A. C&D waste not found other than collection centres</p>											
C&D1.3	Restriction on storage of construction materials along the road.	Total 674 inspectirons are carried out in various sectors of Noida, 242 violation found and Rs. 37.60 Lakh imposed as environmental compansation	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
C&D1.4	Covering of construction site.	Regular enforcement by concerned as ongoing process. Total EC of Rs. 24,30,000/- was imposed due to causing air pollution in construction activities.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D1.8	Enforcement of Construction and Demolition Waste Rules	C&D Waste Processing plant of capacity 300MTD installed and in operation from Oct 2020	Mandated and monitored through dustapp	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D1.9	Control measures for fugitive emissions from material handling-conveying and screening operations	Total EC of Rs. 96,34,500/- was imposed due to causing air pollution in construction activities. 03 Complaints are logged in special environment court, Lucknow.	Regular Activity	15 days, and thereafter, continue as regular activity	No	Regular Activity	Text	yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D1.11	Enforce restrictions on construction activities within urban airshed zones during high pollution period	No ban was imposed in this quarter as related to AQI	Implementation of GRAP	Regular Activity	No	Regular Activity	Yes	yes	Grap attached	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated 2020-21	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
C&D1.12	Frame and implement policy for segregation of construction and demolition waste and provide a network of decentralized (C&D waste segregation and collection sites across the city.	(14 C&D waste segregation and collection sites established and 01 C&D waste Management facility of 300 MTD is operational at sector-80) (List of sites, Sector- 25, 62, 64, 50, 106, 135, 127, 94, 88, 44, 42, 72, 128, 06)	14 sites established (300 TPD C&D waste generated)	Completed	No	14 sites established (300 TPD C&D waste generated)	Yes	yes	Template- J is Attached. As given in Present Status	Rs. 8.30 Cr.	Rs. 1.70 Cr.	Rs. 1.70 Cr.	Rs. 6.60 Cr.yet to be released from the allocated fund
C&D1.13	Promote recycling of construction and demolition waste.	(01 C&D waste Management facility of 300 MTD is operational at sector-80)	setting up 300 TPD C&D waste management facility	15 days, and thereafter, continue as regular activity	No	Completed	Yes/No	yes	As given in Present Status	Rs. 8.30 Cr.	Rs. 1.70 Cr.	Rs. 1.70 Cr.	Rs. 6.60 Cr.yet to be released from the allocated fund

VEHICLES

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachm ent	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE1	Improve and strengthen PUC programme												
VE1.1	Number of PUC centers in the city	Total 90 PUC Centres working	90 PUCs	Mar-21	No	Completed	Number	yes	list of PUC centers <u>Annex-VE-1</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
VE1.2	Regular checking of Vehicular emission and issue of Pollution under Control Certificate (PUC)	3200 vehicles were checked and 219 defaulter were challaned with Rs 5.20 Lakhs penalty imposed. Total 1,27,384 PUCC issued in this quarter.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular activity	Number	None	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE1.4	linking of PUC centres with remote server and eliminate manual intervention in PUC testing.	100% (90 PUC centers are linked with remote server)	Completed	Completed	No	Completed	Number	NA	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE3	Freight transport												
VE3.1	Use of off-peak passenger travel times to move freight and restrict the entry of heavy vehicles into cities during the day to continue	100% (entry of heavy vehicles are prohibited in Noida city area during the day time for a very long time)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE3.2	Provide truck rest areas/parks along national and state highways to prevent entry of trucks into cities during peak hours.	100% (Rest areas provided on eastern periferall expressway, sector-62, 63 & 150)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachm ent	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE3.3	Diversion of truck traffic	100% (Heavy vehicles are diverted via eastern periferall expressway)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE3.4	Check overloading: Use weigh-in-motion bridges / machines (WIM) and Weigh bridges at entry points to the city to check the payload of commercial vehicles. As per the CMVR, a penalty of 10 times the applicable rate for overloaded vehicles is applicable.	02 weigh in motion bridges are established at toll plazas on expressway and national highways of Noida. 223 vehicles challaned with penalty of Rs 45.38 Lakh	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE4	Clean fuel and fuel Quality												
VE4.1	Check on fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data	1. Weekly review meeting of Sales Managers of different oil companies with Supply Department is organized. 2. For the quality control of oil at the level of different oil companies, routine monitoring and sampling is carried out at Diesel/Petrol outlets. 3. Sharing of monitoring report from the oil company with officers of supply department is requested	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
		4. Filter papers are available at the retail outlet for the filter paper test. Dispensing unit of pouted pulsar unit is applied at newly established retail outlets of different oil companies. Details of samples checked and no. of adulterated samples Total 74 samples were collected in this quarter and checked; NONE was found to be adulterated.No fuel adultration observed, NOIDA is Kerosene free area											
VE4.2	Alternative clean fuel policy for vehicle	UPEV Manufacturing and Mobility Policy 2019 is introduced.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Centralized Procurement at State Level	Nil	Nil	Nil

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE 4.4	Use of Bioethanol in the city/urban transport system/waste to energy.	Petrol with 10% Ethanol blending is sold out through oil companies (IOCBP, HPC) at all the pumps of the district. It is being directed by MOPNG. • Each pump in the district is facilitated by VRC (Vapour recovery system) which controls the pollution from petrol vapours	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity		yes	As detailed in present status	Nil	Nil	Nil	Nil
VE5	Parking Management												
VE5.1	Prevent parking of vehicles in the non-designated areas.	Regular enforcement by agencies and Total 28320 vehicles were challaned with amount of Rs 26,03,312/- in the quarter.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE5.2	Development of Multi-layer parking.	100% (07 multilayer parking is in operation for capacity of 13,000 cars)	07 Multilayer Parking	Completed	No	Completed	Number	yes	As detailed in present status	Rs. 80.00 Crore	Rs. 78.00 Crore	Rs. 78.00 Crore	NIL
VE5.3	Penalise parking of vehicles in non designated areas	Penalty provisions of Rs 1000/- for 4-wheelers and Rs 300/- for two- wheelers for parking in non designated area.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE6	Strengthening of Public Transportation												

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachm ent	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE6.5	Introduction of new electric buses (with proper infrastructure facilities such as charging stations) and CNG buses for public transport which will reduce plying of private vehicles on road and help to curb tail-pipe emissions.	55 Charging Stations under installation in Noida and 40 Electric Buses are operated by Noida Metro Rail Corporation	40 electric buses & 55 charging stations	Oct-20	Yes	ongoing	Number	yes	As detailed in present status	Rs. 60 Lac for charging stations	Rs. 60 Lac	Rs. 60 Lac	NIL
VE6.6	CNG infrastructure for auto gas supply in the city and transition of public transport vehicles to CNG mode Introduction of e-buses for Public transport in metro cities	56 CNG stations in operation in district and all public transport is operating on CNG	56 CNG station	Completed	No	Completed	Number	yes	List of CNG stations <u>Annex-VE-2</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
VE6.7	Steps for promoting battery operated vehicles like Erickshaw/ECart	5465 e-vehicles registered in GB Nagar including non-transport and transport vehicles.	Regular Activity	Oct-20	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE7.	Traffic Congestion												
VE7.2	Synchronize traffic movements/Introduce intelligent traffic system for lane-driving	For implementation of Integrated Security and Traffic Management System (ISTMS) for Noida City tender of amount Rs. 88.44 Crore in process.	Noida City	Oct-20	July.2021	July.2021	Text	Yes	As detailed in present status	Rs 88.44 Cr. approx.	Not utilized	Not utilized	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
		Following locations has been identified as traffic congestion hotspots in Noida: 1) Film City 2) DND Loop 3) Elevated Road Entry and Exit 4) Barola 5) Bhangel 6) Mamura 7) Sector 18 8) Noida City Center were observed during week long study except pre identified traffic Hotspot in Noida.	8 Traffic congestion hotspots	Nov-20	No	Completed	Text	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
		Directions issued by UPPCB ON 09.11.2020 and meeting was organised with DCP Traffic GBN, ARTO Enforcement GBN and Noida Traffic Cell on dated 10.11.2020. Traffic plan was issued for Noida	Completed	Nov-20	No	Completed	Text	Yes	copy of directions <u>Annex-VE-3</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
VE 7.4	Prepare plan for widening of road and improvement of infrastructure for decongestion of road.	75% (12 K.M. road widening work completed at Sector-142 to 145 & Sector-150 to 155)	16 K.M.	Oct-20	yes	16 K.M.	Number	yes	Template-G is Attached. As given in Present Status	Rs. 150.00 Crore.	Rs. 110.00 Cr.	Rs. 110.00 Cr.	Rs. 40.00 Cr. yet to be released from the allocated fund

Action point code	Action point	Present status	Target	Target date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE12.1	Introducing cycle tracks along with the roads	100% (46 Kilometres of bicycle paths constructed)	46 km cycle tracks	Completed	No	Completed	Text	No	Nil	Rs. 128.23 Lacs	Rs. 128.23 Lacs	Rs. 128.23 Lacs	NIL

INDUSTRIES

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds
IP1	Industrial air pollution control												
IP1.1	To intensify monitoring of industries to reduce of emission by the industries.	One coal based (medium) and 05 bio fuel based (small) industries in NOIDA all are monitored regularly. Coal based unit is fitted with OCEEMS with PTZ camera and connected to server.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of identified industries. <u>Annex-IP-1</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.2	Action against non-complying industrial units	None were found non-complying	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3	Shifting of Polluting Industries	All Industries are Situated in Notified area of New Okhla Industrial Development Authority. No shifting directed yet.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.5	Random auditing for Air pollution measures and Online reporting systems in the industries	Regular Inspections are carried out for verifying fules. Only one industry is opertional on Coal fuel. Aproxx 20 random audits ware carried out/month	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present Status.	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target date	Deviation from Approve	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocate	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds
IP1.7	Identification of air polluting industries and their regular monitoring including use of designated fuel	Total 20 Air Polluting Industries are operational in Noida. Out of 20 industries 10 are operational on PNG, 01 is operational with LPG, 05 are operational with Bio Briquette, 03 are operational with HSD and 01 is operational with Coal. Regular inspections are carried out.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of identified industries.	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.8	Promoting cleaner production in industries.	As regular activity (Industries are directed for no Industrial waste burning and compliance of various waste management rules). OM issued by UPPCB on 28-02-2020	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	OM- http://www.uppcb.com/pdf/uppcb_2802_2020.pdf	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.9	Fugitive emission control	As regular activity. Total around 38 industries where fugitive emission is possible are under regular monitoring.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present Status.	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target date	Deviation from Approve	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocate	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds
IP1.10	Ensuring installation/Up-gradation and operation of air pollution control devices in industries	100% Total 20 Air Polluting Industries are operational in Noida. Out of 20 industries 10 are operational on PNG, 01 is operational with LPG, 05 are operational with Bio Briquette, 03 are operational with HSD and 01 is operational with Coal. Industry is operational with required APCS & OCEEMS	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present Status.	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.13	Disposal of all non-hazardous wastes into the designated dumping sites	Noida authority has initiated door to door collection in industrial areas as well. Waste management to be streamlined for waste collection is 610 MTD.	100% disposal of Non-Hazardous waste (610 MTD)	As Regular Activity	No	Ongoing	Number	Yes	Template K is attached.	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
IP1.26	Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries.	Complied	Completed	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target date	Deviation from Approve	Annual Target	Field type	Attachm ent	Attachme nt Contents	Total Funds Allocate	Funds releas ed	Funds Utilize d	Additio nal Funds
IP1.28	Implementation of SOx and NOx standards notified by MOEF&CC	Implemented (Sox, Nox, Standards as notified were communicated to industries. Only 01 industry is using coal and quarterly monitoring done and found complying.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present Status.	Not required	Not requir ed	Not requir ed	Not required
IP3	OCEMS in Industries												
IP3.2	Implement Continuous Emission Monitoring System (CEMS) across all targeted and applicable polluting industry	100% (Only 01 Large category industry is targeted and applicable for OCEMS)	Regular Activity	60 days, and thereafter, regular activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not requir ed	Not requir ed	Not required
IP3.3	Development of mobile facility/van for continuous ambient air quality monitoring for different localities.	Not proposed	As per Guidelines	Oct-20	No	NA	Yes/No	No	None	Not required	Not requir ed	Not requir ed	Not required
IP3.4	Live camera feed and to take action against non-complying industrial units	PTZ Camera installed and live feed available.	Regular Activity	Oct-20	No	Regular activity	Yes/No	No	Nil	Not required	Not requir ed	Not requir ed	Not required
IP4	Clean fuel in industries												

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target date	Deviation from Approve	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds
IP4.1	Introduction and shifting towards cleaner fuels in industries	Out of total 20 fuel consuming industries, 11 converted to clean fuel, 01 is using coal, 03 are using Diesel and 05 bio-fuel	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present Status.	Not required	Not required	Not required	Not required
IP4.2	Conversion to CNG/PNG from pet coke /wood / coal and urgent ban on furnace oil, pet coke, which are dirty industrial fuels with high sulphur and heavy metals	Total 20 Air Polluting Industries are operational in Noida. Out of 20 industries 10 are operational on PNG, 01 is operational with LPG, 05 are operational with Bio Briquette, 03 are operational with HSD and 01 is operational with Coal. No Unit is operational with furnace oil/pet coke/ dirty fuels.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present Status.	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5	Control of air pollution from Brick kilns									Not	Not	Not	Not
IP5.2	identification of brick kilns and their regular monitoring including use of designated fuel and closure of unauthorized units.	No Brick Kiln in NOIDA	Nil	Nil	Nil	Nil	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5.3	Conversion of natural draft brick kilns to Force/ induced draft.	No Brick Kiln in NOIDA	Nil	Nil	Nil	Nil	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target date	Deviation from Approve	Annual Target	Field type	Attachm ent	Attachme nt Contents	Total Funds Allocate	Funds releas	Funds Utilized	Additio nal Funds
IP11	Control of air pollution from generator sets												
IP11.1	Allow only DG sets meeting emission and design of chimney/ exhaust, acoustic enclosures standards to operate	DG Sets only with prescribed standards are allowed.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP 11.6	Monitoring of DG sets and action against violations. Fine should be imposed on defaulters.	DG Set operation is banned except essential services due to GRAP in NOIDA.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND BURNING

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
BB1	Biomass Burning												
BB1.1	Regular check and control of burning of municipal solid wastes	Regular check is done by 10 teams in NOIDA (Total 90 inspections are carried out in various sectors of Noida, no case of MSW burning identified since 01 Jan 21.)	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.2	Defaulters for open burning to be imposed fines	No horticulture burning was identified in this quarter.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.3	Identify Garbage burning locations	Garbage burning locations were identified and closed garbage collection centres developed, no case of garbage burning was reported in this quarter	Regular activity	Oct-20	No	Ongoing activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.4	Prohibition/complete ban on garbage burning.	Complete ban on garbage burning	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Yes/No	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.5	Launch extensive drive against open burning of bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc.	Extensive drive was launched in GB Nagar from september onwards through IEC activities. No agriculture/farming land in NOIDA.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Yes/No	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
BB1.8	Providing Organic Waste Compost machines , decentralization of processing of Waste, dry waste collection centers.	20 Composting stations established in different sectors of NOIDA around 8-10 TPD MSW processed through decentralised waste processing in 83 RWAs, 129 High Rise and 24 Hotels & restaurants	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	Yes	Letter of NOIDA Authority <u>Annex-WB-1</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.9	Awareness for controlling of burning of agricultural waste and crop residues.	Action plan for awareness Generation & IEC activities on crop residue management has been prepared by agricultre department for awareness on burning of Crop residue	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	Action plan year(2021-22 IEC activities for crop residue and management <u>Annex-WB-2</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.10	No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots.	NOIDA Policy is implemented for time bound development of the plot. As per Noida policy.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB1.11	Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc	Site Selected	Regular activity	Regular activity	NO	Regular activity		No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
BB 1.12	Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land.	AG Enviro Infra Projects Pvt Ltd is engaged by NOIDA authority for D2D collection of waste and waste is collected in segregated form (dry/wet). Then the waste is brought to 21 compactor locations situated in NOIDA. Compacted waste is finally disposed to dump site in S-145 Noida for Bio-remediation of the waste	100% Household (Disposal site-10)	Regular activity	No	Regular activity	Text	Yes	Template L is attached. As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
BB2	Ensure segregation of waste at source	AG Enviro Infra Projects Pvt Ltd is engaged by NOIDA authority for D2D collection of waste and waste is collected in segregated form (dry/wet) (In 150 sectors and 80 villages waste segregation at source is being practised and total number of authorised colonies)	100% Segregation (610 MT)	Regular activity	No	Regular activity	Text	Yes	Template L is attached. As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
BB3	Proper collection of Horticulture waste and its disposal following composting-cumgardening approach	Around 155 bio-compost pits are in use for disposing horticulture waste through composting-cum-gardening approach. In 726 Nos. of Parks, 270 nos. of compost pits are made for treatment of horticulture waste,	726 Number of Parks	Regular activity	No	Regular activity	Number	Yes	Template M is attached. As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
BB6	Check/stop on Stubble Burning	No agriculture/farming land in NOIDA.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
BB10	Landfill fire												
BB10.1	Proper management of landfill sites to prevent spontaneous fire	One dump site at Sector-145 NOIDA for legacy waste treatment through bio-remediation, the site is managed to prevent spontaneous fire. No incident reported of fire from the area.	Zero	As Regular Activity	No	Ongoing	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
BB10.2	Adopt roadmap for zero landfill policy to promote decentralized waste segregation, reuse and recycling	Two MRF plants with capacity 10 TPD and 5 TPD, 800 TPD Legacy waste treatment under operation, 20 composting stations with 8 to 10 TPD decentralised waste processing in operation in NOIDA	Completed	Completed	No	Completed	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
BB11	Fire crackers—regulate to control their usage	Fire Crackers is regulated as per provisions and directions of Honb NGT. In Delhi-NCR.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	yes	As per NGT Order OA No 249/2020 dated 09-11-2020	Not required	Not required	Not required	Not required
DF1	Domestic Fuel												

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
DF1.1	Increasing the LPG connections in low income strata.	Free gas connection under Ujjwala Yojana as per the determined standards is provided to families of SC,ST, beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana, Antyodaya Cardholders and Eligible household Ration cardholders. Process is escalated with mass awareness programme time to time. Under Gram Swaraj Campaign free gas connection is provided through camps of special campaign (33545 LPG connections in Gautambudh Nagar to low income strata (EWS) Total number of EWS families)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
DF1.6	Ensure easy availability of affordable cleaner cooking fuels (LPG in urban areas & biogas in rural areas)	Information provided by the Nodal Officer of Ujjwala Yojana that the Oil companies is providing small 5 Kg Household gas cylinder for the facility of customers. Special facility provided to the beneficiaries under Ujjwala Yojana in view of COVID-19.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
DF1.8	Implementation of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)	Indraprastha Gas Limited (IGL) provided networking of Gas pipeline for residential and commercial purposes in Noida 1. Free gas connection under Ujjwala Yojana as per the determined standards is provided to families of SC,ST, beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana, Antyodaya Cardholders and Eligible household Ration cardholders. Process is escalated with mass awareness programme time to time. Under Gram Swaraj Campaign free gas connection is provided through camps of special campaign.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
		<p>2. Required record and training is given to the beneficiary family through LPG supply Dealers at the time of providing gas connection. Introduced with the processes of using gas and its benefits at free Ujjwala Gas distribution Camp.</p> <p>3. Information provided by the Nodal Officer of Ujjwala Yojana that the Oil companies is providing small 5 Kg Household gas cylinder for the facility of customers.</p> <p>Special facility provided to the beneficiaries under Ujjwala Yojana in view of COVID-19. 33545 families in the district are recognized under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.</p> <p>Reduction in the use of wood and coal is fund by the use of household cooking gas, resulting in control of Air pollution</p>											
DF1.9	Shift to LPG from solid fuel & kerosene for domestic applications	Noida is Kerosene free city, PNG and LPG is used in domestic application in NOIDA. (33545 domestic users switched to LPG in Gautambudh Nagar)	Completed	Completed	No	Completed	Number	Yes	As detailed in present status	Not required	Not required	Not required	Not required

AIR QUALITY DATA

Action Code	Action Point	Field type	Attachment	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Attachment Contents	
AQ1.1	Monthly averages for PM2.5 (In µg/m3)	Number	-	119.39	141.2	77.53	-	52.85	56.38	81.03	28.56	69.17	144.3	219.69	223.12	213	156	-	
AQ1.2	Monthly averages for PM10 (In µg/m3)	Number	-	214.7	235.11	163.78	-	172.92	122.15	150.38	59.15	150.46	299.88	361.86	282.98	262.65	263.88	-	
AQ1.3	Monthly averages for SO2 (In µg/m3)	Number	-	167.04	188.15	120.65		112.89	89.26	115.71	43.85	109.81	222.09	290.77	253.05	6.68	7.85	-	
AQ1.4	Monthly averages for NO2 (In µg/m3)	Number	-	43.84	51.26	47.36		31.56	24.98	25.73	20.95	31.54	63.26	95.1	105.27	57.36	72.28	-	
AQ1.5	Annual averages for PM2.5 (In µg/m3)	Number	-	110.29															-
AQ1.6	Annual averages for PM10 (In µg/m3)	Number	-	201.21															
AQ1.7	Annual averages for SO2 (In µg/m3)	Number	-	115.75															
AQ1.8	Annual averages for NO2 (In µg/m3)	Number	-	49.17															
AQ1.9	Monthly Meteorological Data		No	-															

Noida City Meteorological Data 2020							
Parameter	WS	WD	AT	RH	BP	SR	RF
Month	m/s	Deg	°C	%	mmHg	W/m ²	mm
January	1.63	148	16	73	745	60	137.9
February	1.88	159	20	62	744	80	99.5
March	1.95	156	24	63	743	97	390.0
April	1.83	154	31	43	742	119	0.0
May	2.15	157	34	43	739	113	0.0
June	1.91	163	35	60	739	112	81.7
July	2.08	165	33	74	738	117	947.1
August	2.00	165	32	82	738	80	1347.0
September	1.39	199	33	67	740	93	32.3
October	1.09	116	30	47	740	79	0.0
November	1.24	145	25	53	742	59	0.0
December	1.32	144	21	63	743	52	28.0
Avg.	1.71	156	28	61	741	88	3063.4



Template A					
RD1.2	Maintain potholes free roads				
Road Type	Name of Road	Road Length	Estimated Budget Required	Budget Allocated	Timeline for Completion
Other City Roads	Sector142-150 road, Sector 72-79 road, Noida- Gr Noida expressway, Sector-63roads, Sector -9 roads, Sector-58 road	115 km	90.00 Lakh	90.00 Lakh	Completed

New Okhla Industrial Development Authority

City –Noida

Dt- 28.05.2021

Template B					
RD1.3	A) Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust.	Road Name	Road Length Covered	No. of Mechanical Sweeper/Sprinkler Deployed	Periodicity of Sweeping/Sprinkling
	City : Noida	Delhi Border from Jhundpura To MP-3 Road	5.60 KM	9 No.	(1) Mechanical Sweeping is done 5 days in a week on main roads (2) Sprinkling is done once in a week.
		MP-1 Rajni gandha to Sec-12 & 55 T-Point	3.90 KM		
		Express way from Sec-14A to Mahamaya Flyover	4.00 KM		
		MP-2	5.00 KM		
		Elevated Road of MP-2 Road	5.00 KM		
		Sec-12-22 to NTPC	2.80 KM		
		DSC Road Ashok Nagar to Sec-37 Underpass	5.50 KM		
		Mahamaya Flyover to Irrigation Drain	10.60 KM		
		Sec-44 & 96 of Amarpali Hazipur T-Point	3.60 KM		
		Mahamaya Flyover to Hazipur Underpass	4.80 KM		
		NTPC to DSC Road (green Valley Chok)	2.00 KM		
		MP-3 Kalindi Kunj to Hindon River	14.70 KM		
		Khoda Market to MP-3 Road	3.80 KM		
		FNG Road Chhijarsi to Parthala Circle	4.80 KM		
		Sec-62	5.70 KM		
		DSC Road to Hazipur Underpass	4.00 KM		
		Irrigation drain to G.Noida Border	10.40 KM		



 28.5.2021
R. K. SHARMA
 Project Engineer
 Public Health-2, NOIDA




	From Sec-71 Red Light to DSC Road	4.10 KM		
	Sec-71 to NH-24	4.50 KM		
	Road Between Sec-77&78 Till Sec-115	3.10 KM		
	FNG Road CNG Gol Chakkar till Sec- 115	3.70 KM		
	Road Between Sec-75&74 and Sec-76&77	2.40 KM		
	Road between Sec-74&117 and Sec- 77&116 and Sec-78&79	3.90 KM		
	DSC Road Sec-37 to Kuleshra	10.40 KM		
	Sec-88 Peripheral Road	2.30 KM		
	Kakrala Road (DSC Road to Samsung)	3.40 KM		
	Road between Sec-81 & 80	2.10 KM		
	Road between Hosiery Complex and Sec-83, 84,87	3.10 KM		
	Sec-80 Plot – B-1 to Plot B-55	0.60 KM		
	Sec-80, Plot B-12 to B-46	0.30 KM		
	Sec-80, Plot B-46 to B-87	0.40 KM		
	Sec-140 Chauraha to Advent Building	2.80 KM		
	Sec-82 Flyover to Panchsheel School Sec-92	2.70 KM		
	Road 49 to Voda Mahadev Temple	2.70 KM		
	Sec-82 T-Point to JP Flyover	1.80 KM		
	JP Flyover to Sec-108 Police Chowki	0.60 KM		
	Sec-82 Flyover to Hazipur Underpass	1.80 KM		
	Panchsheel to Sec-136 Red Light	0.80 KM		
	Sec-91 through ELDECO to Sec-93/Sec-138 Crossing	4.00 KM		
	Panchsheel to Water Tank	10.30 KM		
	Panchsheel to Vill-Chapruli	3.10 KM		
	Water tank Sec-94 Charkha to Postmortem House	0.90 KM		
	Postmortem House through Sec-94 Underpass to Water Tank	1.30 KM		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A.P.E.-P.H.-II

20/5/2021
R. K. SHARMA
Project Engineer
Public Health-2, NOIDA

	Water Tank Charkha to Amity Sec-125 Main Gate	0.60 KM		
	A-1/125 through Gaushala to PM House Sec-94	0.80 KM		
	HCL Crossing to Shani Mandir Vill-Bakhtawarpur	4.30 KM		
	Mayur School to Sec-126 to Pusta	0.60 KM		
	Genesis Circle to B-14 Summerville School	0.90 KM		
	HCL to Lotus Valley School	0.50 KM		
	Vill-Vajidpur Gate to Xyou Mall	1.10 KM		
	Shahpur Circle to CIM Sec-133	1.10 KM		
	Sec-135 Bijli ghar to Pusta	0.90 KM		
	Golden Palm to Shani Mandir Xaries	0.40 KM		
	Metlife to Sec-135 Pusta Road	0.90 KM		
	Block No. 26 Sec-135 to Gol Chakkar (Parallel to Pusta)	0.80 KM		
	45 Mtr. Road under Metro Line Sec-142 and Sec-148	9.80 KM		
	Along with express way vill-Jhatta Sec-159 to Sec-150 Gol Chakkar Pusta	4.50 KM		
	Shaheed Bhagat Singh Park to L Point to Sec-150 ATS	1.30 KM		
	Gol Chakkar Sec-150 to Vill-Gadhi Samaspur near Water Tank	1.60 KM		
	Shaheed Bhagat Singh Park to Sec-155 End Point	3.60 KM		
	Sec-154 & 157 to Vill-Badoli Road	0.40 KM		
	Express Way Service Road to Sec-158, 156, 157, 159 Crossing	0.80 KM		
	Sec-154 & 153 to 151'A' 155 T-Point	1.30 KM		
	Crossing Sec-156,157,158,159 To Sec-153 Aman Apartment	1.90 KM		
	IInd NPX Building to Sec-152 & 153	0.50 KM		

 28.5.2021

A.P.E.-P.H.-II

R. K. SHARMA
 Project Engineer
 Public Health-2, Noida


New Okhla Industrial Development Authority

City –Noida

Dt- 28.05.2021

Template C					
	B) Removal of Road Dust on major roads & streets at least twice a month by Mechanical Sweeping Vacuum Cleaning followed by assessment of removed road dust in MT by actual weighing and sampling in roads	Road Name	Road Length Covered	Dust Collected/Sweeping (MT)	Mode of disposal of dust collected
	City : Noida	Delhi Border from Jhundpura To MP-3 Road	5.60 KM	7 to 8 MT Per Day	In low lying areas
		MP-1 Rajni gandha to Sec-12 & 55 T-Point	3.90 KM		
		Express way from Sec-14A to Mahamaya Flyover	4.00 KM		
		MP-2	5.00 KM		
		Elevated Road of MP-2 Road	5.00 KM		
		Sec-12-22 to NTPC	2.80 KM		
		DSC Road Ashok Nagar to Sec-37 Underpass	5.50 KM		
		Mahamaya Flyover to Irrigation Drain	10.60 KM		
		Sec-44 & 96 of Amarpali Hazipur T-Point	3.60 KM		
		Mahamaya Flyover to Hazipur Underpass	4.80 KM		
		NTPC to DSC Road (green Valley Chok)	2.00 KM		
		MP-3 Kalindi Kunj to Hindon River	14.70 KM		
		Khoda Market to MP-3 Road	3.80 KM		
		FNG Road Chhijarsi to Parthala Circle	4.80 KM		
		Sec-62	5.70 KM		
		DSC Road to Hazipur Underpass	4.00 KM		

[Handwritten Signature]


R. K. SHARMA
 Project Engineer
 Public Health-2, NOIDA

	Irrigation drain to G.Noida Border	10.40 KM		
	From Sec-71 Red Light to DSC Road	4.10 KM		
	Sec-71 to NH-24	4.50 KM		
	Road Between Sec-77&78 Till Sec-115	3.10 KM		
	FNG Road CNG Gol Chakkar till Sec- 115	3.70 KM		
	Road Between Sec-75&74 and Sec-76&77	2.40 KM		
	Road between Sec-74&117 and Sec- 77&116 and Sec-78&79	3.90 KM		
	DSC Road Sec-37 to Kuleshra	10.40 KM		
	Sec-88 Peripheral Road	2.30 KM		
	Kakrala Road (DSC Road to Samsung)	3.40 KM		
	Road between Sec-81 & 80	2.10 KM		
	Road between Hosiery Complex and Sec-83, 84,87	3.10 KM		
	Sec-80 Plot – B-1 to Plot B-55	0.60 KM		
	Sec-80, Plot B-12 to B-46	0.30 KM		
	Sec-80, Plot B-46 to B-87	0.40 KM		
	Sec-140 Chauraha to Advent Building	2.80 KM		
	Sec-82 Flyover to Panchsheel School Sec-92	2.70 KM		
	Road 49 to Voda Mahadev Temple	2.70 KM		
	Sec-82 T-Point to JP Flyover	1.80 KM		
	JP Flyover to Sec-108 Police Chowki	0.60 KM		
	Sec-82 Flyover to Hazipur Underpass	1.80 KM		
	Panchsheel to Sec-136 Red Light	0.80 KM		
	Sec-91 through ELDECO to Sec-93/Sec-138 Crossing	4.00 KM		
	Panchsheel to Water Tank	10.30 KM		
	Panchsheel to Vill-Chapruli	3.10 KM		
	Water tank Sec-94 Charkha to Postmortem House	0.90 KM		
	Postmortem House through Sec-94 Underpass to Water Tank	1.30 KM		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
28.5.2021

R. K. SHARMA
Project Engineer
Public Health-2, NOIDA

	Water Tank Charkha to Amity Sec-125 Main Gate	0.60 KM		
	A-1/125 through Gaushala to PM House Sec-94	0.80 KM		
	HCL Crossing to Shani Mandir Vill-Bakhtawarpur	4.30 KM		
	Mayur School to Sec-126 to Pusta	0.60 KM		
	Genesis Circle to B-14 Summerville School	0.90 KM		
	HCL to Lotus Valley School	0.50 KM		
	Vill-Vajidpur Gate to Xyou Mall	1.10 KM		
	Shahpur Circle to CIM Sec-133	1.10 KM		
	Sec-135 Bijli ghar to Pusta	0.90 KM		
	Golden Palm to Shani Mandir Xaries	0.40 KM		
	Metlife to Sec-135 Pusta Road	0.90 KM		
	Block No. 26 Sec-135 to Gol Chakkar (Parallel to Pusta)	0.80 KM		
	45 Mtr. Road under Metro Line Sec-142 and Sec-148	9.80 KM		
	Along with express way vill-Jhatta Sec-159 to Sec-150 Gol Chakkar Pusta	4.50 KM		
	Shaheed Bhagat Singh Park to L Point to Sec-150 ATS	1.30 KM		
	Gol Chakkar Sec-150 to Vill-Gadhi Samaspur near Water Tank	1.60 KM		
	Shaheed Bhagat Singh Park to Sec-155 End Point	3.60 KM		
	Sec-154 & 157 to Vill-Badoli Road	0.40 KM		
	Express Way Service Road to Sec-158, 156, 157, 159 Crossing	0.80 KM		
	Sec-154 & 153 to 151'A' 155 T-Point	1.30 KM		
	Crossing Sec-156,157,158,159 To Sec-153 Aman Apartment	1.90 KM		
	IInd NPX Building to Sec-152 & 153	0.50 KM		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
28.5.2024

R. K. SHARMA
Project Engineer
Public Health-2, NOIDA

Template D

D) Water sprinkling is being done on all major roads on daily basis

Road Name	Road Length Covered	No. of Sprinkler Deployed	Periodicity of water sprinkling	Quantum of STP treated water utilized per sprinkling (KLD/Sprinkling)
MP-1, MP-2, MP-3, DSC, Expressway, Udyog marg, sector-74 to 78, Main road Phase-II roads	243 K.M	55 Nos. of water tankers	twice a week	(STP water charged at Rs. 5.00/KL) (Road wash 60 K.M./day)

Template E

RD1.4				
Black-topping of unpaved road				
Name of the road to be black topped	Length to be black topped (in Km)	Estimated Budget Required	Budget Allocated	Timeline for Target Completion
Sector142-150 road, Sector 72-79 road, Noida-Gr Noida expressway, Sector-63 roads, Sector-9 roads, Sector-58 road. Sector-142 to 145 & Sector- 150 to 155	121 km	168.00 Cr.	168.00 Cr.	Jul-21

Template F				
RD1.7	End-to-end paving of the road			
Name of the road to be end to end paved	Length to be paved (in Km)	Estimated Budget Required	Budget Allocated	Timeline for Target Completion
Sector-74 to Sector- 79	25 K.M	10.00 Cr.	10.00 Cr.	Completed

Template G

RD1.10				
Widening of Roads				
Name of the road to be widened	Total Road length to be Widened	Estimated Budget Required	Budget Allocated	Timeline for Target Completion
Sector-142 to 145 & Sector-150 to 155)	16 K.M.	Rs. 150.00 Crore.	Rs. 150.00 Crore.	Completed

Template H

RD2.2	Creation of green buffers along the traffic corridors and their maintenance		
Green Area as per Master Plan 2031	Green area covered	Green area to be covered	Timeline for Target Completion
2433.0 ha	1900.0 ha	533.0 ha	60.0 ha per day

Template I			
RD 2.7	Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan.		
S.No.	Year	Plantation Target Area/No of saplings to be planted in the district*	Timeline
1	2021-2022	3.0 Lac	12 Month
2	2022-2023	3.5 Lac	12 Month
3	2023-2024	3.0 Lac	12 Month

Template J


C&D1.12	Frame and implement policy for segregation of construction and demolition waste and provide a network of decentralized C&D waste segregation and collection sites across the city.				
Total C&D Waste Generated/Targets for Collection and Processing (MT/Day)	No of collection centers to be establish	Timeline	C&D Waste Collected (MT/Day)	Total Waste Processed (MT/Day)	Mode of Disposal
14 C&D waste segregation and collection sites established and 01 C&D waste Management facility of 300 MTD is operational at sector-80)	Sector- 25, 62, 64, 50, 106, 135, 127, 94, 88, 44, 42, 72, 128, 06)	1 year from 05.03.2019 Completed	300 TPD	300 TPD	C&D waste processing plant is functional w.e.f 05.10.2020 C&D waste is Scientifically disposal by using wet technology

Template K.		
IP1.13	Disposal of all non-hazardous wastes into the designated dumping sites	
Total Non-Hazardous Waste Generated (MT/Day)	Non-Hazardous Waste Collected (MT/Day)	Mode of Disposal
610 MT	610 MT	By Remediation Technology

Template L

BB 1.12	Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land.	
1	No. of Wards/Zones	10
2	No. of households	232679
3	No of vehicles for waste collection	205
4	Households covered	1
5	No. of compactors	22
6	No. of sites for processing/disposal	10
7	Total Waste Collected	610 MT
8	Waste Segregated	610 MT
9	Total Waste processed	610 MT
10	Total Recyclables recovered:	58 MT

Template M		
BB3	Proper collection of Horticulture waste and its disposal following composting-cumgardening approach	
1	No. of Wards/Zones	3
2	No. of parks	726
3	No of composting pits	270
4	Bulk composting sites	10
5	Compost prepared	300 cum per year
6	Compost Used In-house	In sector park/ Green belt
7	Compost Sold	Nil



ANNEXURE

MICROLEVEL PLANNING OF CITY ACTION PLAN- NOIDA

DEPARTMENT NAME: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Air quality monitoring network

Action point	Time Target	Implementation agencies
Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations)	15 days and thereafter as regular activity	UPPCB

Micro level planning

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible					
								Project implementation	Project review				
Installation of CAAQMS in NOIDA city	03 CAAQMS are installed in NOIDA City as per CPCB norms. Details of total 03 CAAQMS installed in NOIDA is given below: <table border="1" style="margin: 5px 0; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">City</th> <th style="width: 50%;">No. of CAAQMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOIDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> Locations details: 1. Sector-125, Amity University campus 2. Sector-01, R.O. Building, UPPCB 3. Sector-116, Jal-Kal Vibhag	City	No. of CAAQMS	NOIDA	3	Low	Completed	Completed	Completed	Completed	Completed	Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB	Member Secretary, UPPCB
City	No. of CAAQMS												
NOIDA	3												

Timelines for the project – Installation of CAAQMS in NOIDA

Activity	Sub-activity	Timeline							Remarks
Prebidding stage	Preparation of tender document								Completed
Bidding stage	Calling of bids & its approval								
	Release of work order 1. Sector-125, Amity University campus-08.02.2016 2. Sector-01, R.O. Building, UPPCB-02.05.2018 3. Sector-116, Jal-Kal Vibhag- 02.05.2018								

Project execution	Procurement of CAAQMS								
	Selection of location								
	Installation of CAAQMS								
	Connecting CAAQMS to the online CPCB server for real time monitoring								
	Calibration of CAAQMSs			Calibration work carried out as per protocol.					

Mechanism for Monitoring, Review and reporting

Key performance indicators	Performance assessment		Reasons for delay in completion	Steps taken to minimize the delay
	Parameter	Details		
Timely completion of activities	Procurement	Completed	Completed	Completed
	Installation	Completed	Completed	Completed
Operation of the CAAQMS	Total parameters analysed	PM10, PM2.5, SO ₂ , NO ₂ , NH ₃ , O ₃ , CO, BTX and Meteorological parameters		
	No. of non-operation days	Operational in >85% days as per protocol during 2020.		
	Calibration of CAAQMSs	As per CPCB protocol.		
Data availability and usage	Setting public alerts when pollution is high	Connected to National Network of CPCB and data available on website for public access.		
	Data availability on public domain through SAMEER App	Available		
	Trend analysis of level of pollutants over a period of time	Yes		

Knowledge and database augmentation – Source apportionment studies (Monthly)

Action point	Time Target	Implementation agencies
Comprehensive Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment	<p>Joint study of SA & CC was proposed by CPCB for NOIDA city in compliance of Hon,ble NGT order in OA No. 681/2018 as discussed in meeting held on 29.01.2021 under the Chairmanship of MS, CPCB.</p> <p>Draft MoU including scope of work shall be prepared by CPCB.</p> <p>Timeline to be provided by CPCB, Delhi</p>	CPCB

Micro level planning

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Comprehensive Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment study for NOIDA	Work will be awarded by CPCB, Delhi	-						Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB/ AQM Division, CPCB, Delhi	Member Secretary, UPPCB/ AQM Division, CPCB, Delhi
Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity for NOIDA	Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity for NOIDA is undergoing by IIT-Kanpur	-	Rs. 6.19 lacs	June 2021	UPPCB	Rs.6.19 lacs	No		

Timelines for the *Comprehensive SA/EI* study for NOIDA (Expected timeline depending on the work order issued by CPCB, Delhi)

Activity	Sub-activity	Timeline (Actual timeline to be provided by CPCB, Delhi)						Remarks
		Sept 21	Oct 21- Sep 22	Sept 22- Dec 22	Jan 23 – Jul 23	Aug -Oct 23	Nov 23- Dec 23	
			25%	25%	25%	25%		
Proposal stage	Release of work order							
Project execution	Data collection for emission inventory							
	Preparation of emission inventory							
	Procurement & establishment of monitoring stations							
	Sampling & Analysis							
	Dispersion & Receptor modelling							
	Data interpretation & compilation , Draft Report							
	Final report preparation & submission							
	Presentation & discussion on the submitted report							

Timelines for the *Comprehensive CC* study for NOIDA (Expected timeline depending on the receiving of funds)

Activity	Sub-activity	Timeline (Actual timeline to be provided by CPCB, Delhi)					Remarks
		Sept 21	Oct 21- Jan-22	Feb22- Apr 22	May22- Jul 22	Aug22 - Oct22	
			25%	25%	25%	25%	
Proposal stage	Release of work order						
Project execution	Data collection and compilation of monitored data for the 10 years						
	Preparation of emission inventory						
	Application of dispersion model						
	Literature review and protocol for CC						
	Data interpretation & compilation						
	Final report preparation & submission						
	Presentation & discussion on the submitted report						

Timelines for the Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity (undergoing)

Activity	Sub-activity	Timeline					Remarks
		April 20	June 20 -Dec 20	Jan 21- Feb21	March 21	May- July 21	
		25%		25%	25%	25%	
Proposal stage	Release of work order						
Project execution	Data collection and compilation of monitored data for the 10 years						
	Preparation of emission inventory						
	Application of dispersion model						
	Literaturereview and protocol for CC						
	Data interpretation & compilation						
	Final report preparation & submission						
	Presentation & discussion on the submitted report						

Mechanism for Monitoring, Review and reporting (Monthly)

Key performance indicators	Performance assessment		Reason for delay in completion	Steps taken to minimize the delay
	Parameter	Details		
Timely completion of activities	Total operational activities			
	Activities completed within timeline			
	Total time slippage w.r.t. original timeline			
Refinement of action plan based on recommendations of SA study	Addition & prioritization of action points as per the recommendations			
	Identification of hotspots & high impact sources on air pollution of the city			
	Micro planning & implementation for control of pollution due to high impact sources and of hotspots			
Monitoring	Impact on hotspots& high impact pollution sources due to focussed actions			



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Training Calendar 2021-2022

A. Training and Capacity building of UPPCB officials

S. No.	Training Topics	Mode of Training	Training Agency	Duration/Timeline for Development of Training modules	Duration	Tentative Schedule	Tentative Number of Participants	Remarks
1	Functioning of Air Pollution Control System (APCS) installed in Industries	Online	UPPCB	Dec-21	3 Days	Jan-March 2022	10/ NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
2	Training for Preparation and Up-gradation of Emission Inventories on GIS Platform along with Source Apportionment Studies and its use for up-gradation of City Clean Air Action Plans	Online	UPPCB	Jan-22	5 Days	Jan-March 2022	5/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC

3	Training on Air Quality Monitoring which includes Ambient AQM, Monitoring of Pollution Sources and Hotspots for intervention impact assessment along with data interpretation and proposed actions	Online	UPPCB	Sep-21	2 days	Jan-March 2022	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
4	Training on Assessment of Pollution Load of sources including stack monitoring, assessment of suspended dust by roads etc. along with data interpretation	Online	UPPCB	Sep-21	3 Days	Dec 2021-Feb 2022	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
5	Training on Virtual monitoring of pollution sources through online portal from Control Rooms	Online	UPPCB	Jun-21	2 days	July- Dec 2021	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
6	Training on the Use of Laboratory Information Management System (LIMS)	Online	UPPCB	Jun-21	3 Days	July- Dec 2021	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds

								under XV FC
7	Training on Noise Monitoring, preparation of Noise Maps and data interpretation	Online	UPPCB	Jun-21	2 Days	July- Dec 2021	2/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
8	GIS Training for Air Pollution Source Identification and their Monitoring	Offline	Residential Training Conducted by Remote Sensing Application Centre, Lucknow	-	1 week	11 May- 18 May	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	
9	Advance Instrumental Analytical Techniques and Preventive Maintenance	Offline	National Institute of Occupational Health, Nirmal Bhavan, Poojanahalli Road, Off NH-7, Devanahalli Taluk, Kannamangala Post, Bangalore-562 110	-	1 week	7 June- 14 June	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	
10	Advance Instrumental Analytical Techniques (AAS, ICP-OES, XRF, GC-MS, ATDGC, HPLC, IC, EC/OC, TOC etc.)	Offline	Analytical Instrumentation Division, National Environmental Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur-440 020	-	1 week	15 June- 21 June	2 from UPPCB HQ	

11	Training on Preparation of Standard Operating Procedures for Analytical Techniques	Offline	IITR, Lucknow	-	1 week	12 July- 18 July	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
12	Training on Measurement Uncertainty	Offline	4-days Training conducted by BIS/ CIPET	-	4- days	16 Aug-19 Aug	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions
13	Laboratory Quality Management & Internal Audit as per ISO: IEC 17025:2017	Offline	4-days Training conducted by BIS/ CIPET	-	4- days	13 Sept-16 Sept	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions
14	Real Time Monitoring of Continuous Ambient Air Quality Monitoring (CAAQM), Merits, Demerits, Standard Operation & Maintenance Procedures, Data Validation, Interpretation & Presentation. Calibration &	Offline	Private Vendor	-	3 days	20 April- 22 April	2 from UPPCB HQ	

	Quality Assurance, Uncertainty Aspects and Related Formats/ Check Lists							
15	Air Pollution Control Devices & OCEMS for various sectors	Offline	Environment Management Division, Engineering Staff College of India, GachiBowli, Hyderabad – 500 032	–	1 week	4 october-10 October	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions
16	Environmental Data Interpretation, Compilation, Analysis, Presentation and Reporting – Hands-on- Training and Case Study	Offline	Indian Statistical Institute, 7, S.J.S. Sansanwal Marg, New Delhi -110 016	–	1 week	18 Dec-24 Dec	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions
17	Environmental Legislations, Interpretation, Enforcement, Legal and Statutory	Offline	National Law School of India University, Post Bag No. 7201, Nagarbhavi, Bangalore – 560 072 (Karnataka)	–	1 week	3 Jan,22 - 9 Jan,22	2 from UPPCB HQ	Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions

	Requirements – Case Studies							
B. Training and Capacity building of Urban Local Bodies and Other Stakeholders								
S.No.	Training Topics	Mode of Training	Training Agency	Duration/Timeline for Development of Training modules	Duration	Tentative Schedule	Tentative Number of Participants	
1	For Air Pollution Control System (APCS) Operators & Supervisors in Industries for effective functioning of APCS	online	UPPCB	Dec-21	1 Week	Jan-March 2022	50/ NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
2	For Boilers Operators with the objective of ensuring Efficient & Pollution free operation of Boilers installed in the industries	online	UPPCB	Dec-21	1 Week	Jan-March 2022	50/ NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
3	For employees of ULBs regarding Control of Air Pollution	online	UPPCB	Sep-21	5 Days	Oct 2021- March 2022	All concerned employees of ULBs	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC

4	For Site Incharge and Supervisors of Construction & Infrastructure Development Projects for control of Dust Pollution and use of Dust App	online	UPPCB	Sep-21	3 Days	Oct 2021- March 2022	All operative construction projects	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
5	For Making the RWAs & Citizens to adopt environmentally friendly practices and motivate them to lead reduced pollution load lifestyles and recognising them as Paryavaran Prahari along with development of a Mobile App	online	UPPCB	Sep-21	1 week	Oct 2021- March 2022	For Mass Awareness	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
C. Training and Capacity building of Local Technical Institutes with the help of IoR identified under NKN								
S.No.	Training Topics	Mode of Training	Training Agency	Duration/Timeline for Development of Training modules	Duration	Tentative Schedule	Tentative Number of Participants	

1	Preparation and Up gradation of Emission Inventories on GIS Platform along with Source Apportionment Studies and its use for upgradation of City Clean Air Action Plans	online	UPPCB	Dec-21	5 Days	Jan-March 2022	05/ Local Institutes	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
2	Air Quality Monitoring which includes Ambient AQM, Monitoring of Pollution Sources and Hotspots for intervention impact assessment along with data interpretation and proposed actions	online	UPPCB	Dec-21	3 days	Jan-March 2022	05/ Local Institutes	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
3	Assessment of Pollution Load of sources including stack monitoring, assessment of suspended dust by roads etc.	online	UPPCB	Dec-21	4 Days	Jan-March 2022	50/ Local Institutes	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC

Regional Office, U.P. Pollution, Control Board, Noida

S.No.	Month	No. of case	Amount
1	Oct-20	39	30,20,000-00
2	Nov-20	47	36,65,000-00
3	Dec-20	28	19,90,000-00
4	Jan-21	22	12,20,000-00
5	Feb-21	11	4,10,000-00
6	Mar-21	9	9,00,000-00
Total		156	1,12,05,000-00

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 04.01.2021 to 10.01.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	3	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	45	5	5	0	610000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	69	29	29	0	160000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	410	380	0	0	36600	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	95	55	0	0	33200	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 11.01.2021 to 17.01.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	60	5	5	0	1,40,000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	90	35	35	0	2,30,000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	381	323	0	0	32200	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	70	23	0	0	28100	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 18.01.2021 to 24.01.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	20	3	3	0	1,50,000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	61	22	22	0	1,60,000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	350	210	0	0	26100	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	60	15	0	0	20500	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 25.01.2021 to 31.01.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	25	6	6	0	190000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	50	19	19	0	120000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	280	160	0	0	22300	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	55	22	0	0	15600	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 01.02.2021 to 07.02.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	20	3	3	0	130000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	80	35	35	0	190000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	380	190	0	0	27800	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	75	20	0	0	55200	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 08.02.2021 to 14.02.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	2	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	3	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	42	7	7	0	210000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	71	29	29	0	240000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	350	160	0	0	25300	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	50	24	0	0	60300	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 15.02.2021 to 21.02.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	25	4	4	0	200000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	90	35	35	0	290000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	390	197	0	0	40300	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	59	21	0	0	52800	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 22.02.2021 to 28.02.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	3	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	12	2	2	0	100000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	65	52	52	0	253000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	360	180	0	0	38700	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	30	15	0	0	48100	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 01.03.2021 to 07.03.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	5	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	11	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	20	5	5	0	700000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	60	25	25	0	650000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	310	150	0	0	55600	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	50	20	0	0	69200	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 08.03.2021 to 14.03.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	7	2	2	0	100000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	80	43	43	0	825000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	430	165	0	0	80900	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	85	35	0	0	78900	0	0	0	-

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

Weekly Action Taken Report in GRAP to Control Air Pollution in NACs

To be sent on Every Monday Morning at 11.00 AM

Name of NAC:- NOIDA

Date :- From 15.03.2021 to 21.03.2021

Part A

Sl. No.	Air Pollution Sources	Department	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action Taken						Remarks
						No. of Notices	No. of Cases referred for fine under NGT Act	Fine imposed (in Rs.)	Fine collected (in Rs.)	No. of Show Cause Notice	No. of Closure done	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Industrial Activity	UPPCB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Open Burning- • MSW • Biomass	Noida Authority	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	Noida Authority & UPPCB	1	10	2	2	0	100000	0	0	0	-
4	Dust from Construction & Demolition Activities	Noida Authority & UPPCB	11	60	35	35	0	664000	0	0	0	-
5	Air Pollution from Brick Kilns	UPPCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Brick Kiln is established under jurisdiction of this office
6	Visible Polluting Vehicle	RTO	2	340	135	0	0	72500	0	0	0	-
7	Old Polluting Vehicle	RTO	2	60	32	0	0	82400	0	0	0	-

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C.

From,

Sudhir Garg,
Principal Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

Member Secretary,
National Disaster Management Authority,
NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave,
New Delhi - 110029.

**Environment, Forest &
Climate Change Section-7,**

Lucknow : Dated: 22-December, 2020

Sub:- Compliance of order of Hon'ble National Green Tribunal dated 20.11.2019 passed in O.A. No. 681/2018 in the matter of News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15" reg.

Dear Sir,

Please refer to the captioned order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 vide which it was directed that the emergency arising out of severe air pollution levels may be treated as a disaster and an Emergency Response System may be developed accordingly. The relevant operative portion of the order dated 20.11.2019 is reproduced below-

".....27. With regard to finalization of Emergency Response System (ERS), we are of view that the State Disaster Management Authorities in coordination with the SPCBs/PCCs and State Units of Meteorological Departments may include emergency as a part of disaster management and develop ERS accordingly which may be placed in public domain."

In order to ensure compliance of this order, Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a direction under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 18.02.2020 to Uttar Pradesh Disaster Management Authority (UPSDMA) for development of Emergency Response System. The matter was also reviewed by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh on 02.12.2020 in which UPSMA submitted that the guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS have not been issued by the apex body namely National Disaster Management Authority (NDMA). It was decided in the said meeting dated 02.12.2020 that a request letter for issuance of the required guidelines may be sent to NDMA, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India.

Therefore, it is requested that the Guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS accordingly may kindly be issued at the earliest so that the necessary steps may be taken up by the State for compliance of orders of Hon'ble NGT.

Yours Sincerely,

(Sudhir Garg)
Principal Secretary.


CEO (Lab)
FPI/1000
22-12-2020
(आशीष तिवारी)
गदरुप सचिव

SA(S)
25/12/20
CEO

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C., Dated.

Copy: For taking up necessary action for issuance of guidelines to-

1. Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jorgabh Road, New Delhi – 110003.
2. Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 10032.
3. Member Secretary, UP State Disaster Management Authority, Picup Bhawan, B-2 Ground floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010.
4. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.


(Sudhir Garg)
Principal Secretary.



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Public Awareness & Engagement Calendar FY - 2021-22

S. No.	Date	Theme/Issue	Organizing Department/Agency	Target Group	Source of Funding
1	April-June 2021	Clean Environment Hackathon, 2021 (Online Hackathon for moonshot awareness campaign tool to help people to assess environmental impact of their lifestyle, thereby coaxing them to reduce their environmental footprints.)	UPPCB	Students & Professionals	UPPCB/CSR Funds
2	April 2021- March 2022	Paryavaran Prahari Programme for orientation of people on various environmental issues by involving them in IEC activities	UPPCB	All Citizens	UPPCB Funds
3	22 nd April, 2021	World Earth Day – Restore Our Earth	Madhyamik Shiksha/Basic Education & Industries	Class 1 – 12/ Industries	Departmental Funds & CSR Funds
4	5 th June	World Environment Day – Ecosystem Restoration	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	Schools/Colleges/ RWAs /Industries	Government Funds & CSR funds

S. No.	Date	Theme/Issue	Organizing Department/Agency	Target Group	Source of Funding
5	1 st July – 7 th July, 2021	Van Mahotsav (Plantation Drives)	All Departments/Agencies/Industries and Individuals	Schools/Colleges/RWAs/Industries/Government Departments	Government Funds & CSR funds
6	16 th September, 2021	World Ozone Day - Ozone: All there is between you and UV	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	Schools/Colleges/RWAs/Industries	
7	20 th September – 23 rd September, 2021	PUC Awareness Drive	Transport Department UP	All Stakeholders	Departmental Funding
8	24 th September, 2021 – 30 th September, 2021	Graded Response Action Plan Awareness Workshop	UPPCB & District Environment Committee	All Stakeholders	UPPCB Funds
9	1 st October, 2021	C&D Waste Management Awareness Workshop	Urban Development Department	CREDAI/Builders/Contractors	Departmental Funding
10	2 nd October, 2021	Solid Waste Management – Engaging Ragpickers and Society	Urban Development Department	RWAs/Rag pickers/Waste Warriors	Departmental Funding
11	October, 2021 – Every Saturday	Plogging: Plog-a-thon	UPPCB	RWAs/Industries/Institutes/Schools	

S. No.	Date	Theme/Issue	Organizing Department/Agency	Target Group	Source of Funding
12	25 th October, - 29 th October, 2021	Fire Crackers Awareness Campaign	Higher/Madhyamik/Basic Education Department & District Environment Committee	Schools/Colleges/ RWAs	Departmental Funding
13	11 th January – 17 th January, 2022	Road Safety Awareness – Traffic Management & Air Pollution	Transport Department & Traffic Police	All Stakeholders	Departmental Funding
12	24 th January, 2022	Circular Electronics Day – Electronic Waste Awareness Workshop	UPPCB	All Stakeholders	UPPCB & CSR Funds
13	2 nd February, 2021	World Wetland’s Day Awareness Programme	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	All Stakeholders	Departmental & CSR funding

Note: Complete Programme details to be made available on www.uppcb.com a month in advance

REGIONAL OFFICE
U.P POLLUTION CONTROL BOARD
GHAZIABAD

Sample collected by: Mr. Ashish Chauhan (JRF) Noida

Monitored Values of Total Road Dust and Dust upto 75 microns (Grams/M²)

Sl. No	Location and Coordinates	Total dust in (grams/M ²)	Dust upto 75 microns (grams/M ²)
1.	Sec-62 Metro Station, Near Fortis Hospital, Main Road Noida Electronic city, Noida	269.7344	74.0828
2.	In Front of Mithaas Sweets, Sec-62 A-B Block road, Noida	172.3762	37.7912
3.	Near Mahamaya Flyover, Noida Greater Noida Expressway, Noida	99.8347	16.1614
4.	Near Advant IT Park, Sector-142, Noida	101.285	20.2856
5.	Sector-129 to Sector-155 road, Noida	536.501	108.0308
6.	Sector-37 to Bhangel road, Near Sector-107, Noida	192.9383	25.72915
7.	In front of NSEZ, Phase-II Surajpur road, Noida	59.8406	9.7666
8.	Near Parthala Chowk, Sec-121, Vikas Marg, Noida	552.0031	159.4281
9.	In front of Spectrum Metro Mall, Near Sector-50 Metro Station, Noida	512.9956	84.8929
10.	Sector-16 to 12/22 road, Near 12/22 Chauraha, Noida	135.0108	15.32505
11.	Gaur Chowk- Surajpur road, Near Charmurti, Greater Noida	531.2168	130.4707

SA
16/1/2020
SA

ASO
ASO

RO
RO



2.1 विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं

- 2.1.1 अनुज्ञा हेतु आवेदन
- (I) विकास अनुज्ञा के लिये निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) पर आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ, मानचित्रों के चार सेट/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जाएंगे।
 - (II) जमा किये जाने वाले मानचित्रों में, 'की प्लान', 'महायोजना में स्थिति का मानचित्र', 'साइट प्लान', 'तलपट मानचित्र' और 'सर्विसेज प्लान' भी शामिल होंगे।
 - (III) मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदत्त हो जाने पर एक सेट प्राधिकरण में अभिलेख हेतु रखा जाएगा।
 - (IV) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके द्वारा नाम, पता, योग्यता और प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भू/भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।
- 2.1.2 सूचनाएं एवं दस्तावेज
- 2.1.2.1 प्राधिकरण योजना में आवेदन पत्र, यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-
- (I) कब्जा पत्र तथा लीज/लाइसेन्स डीड के साथ जारी साइट प्लान की प्रतिलिपि।
 - (II) भू-खण्ड के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति।
- 2.1.2.2 अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में आवेदन पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-
- (I) आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति या रजिस्ट्रीकृत विलेख।
 - (II) साइट प्लान (जिसमें भू-खण्ड संख्या और क्षेत्रफल/भवन की संख्या, गॉव, मोहल्ला का नाम, आदि का उल्लेख होगा)।
 - (III) नजूल अथवा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि होने की दशा में सम्बन्धित विभाग से फ्री-होल्ड डीड अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 2.1.2.3 'की-प्लान' भूखण्डों के उप-विभाजन अथवा कालोनी के विकास या पुर्नविकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ 'की-प्लान' जिसमें उत्तर दिशा-सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।
- 2.1.2.4 साइट प्लान
- (I) आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या या अन्य स्थानीय प्राविधानों सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिए जाएंगे।
 - (II) सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व में उप-विभाजन स्वीकृत होने पर उसमें उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्गों का भी उल्लेख होगा।
 - (क) प्रस्तावित उप-विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुँचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सड़क का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाए जाएंगे।
 - (ख) समस्त विद्यमान संरचनाओं और 'फीचर्स' की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन/बिजली के खम्भे, अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन, आदि जो स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हों, दर्शाई जाएंगी।

2.1.2.5 उप-
विभाजन
तलपट
मानचित्र

(ग) भूखण्ड की समस्त मुख्य भौतिक विशेषताएं जिनके अन्तर्गत किसी जलाशय की स्थिति और लगभग आकार, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और स्थल का ढाल (1:20 से अधिक होने पर 0.3 मीटर के अन्तराल पर समोच्च रेखाएं (कन्टूर) सहित) दर्शाई जाएंगी।

(घ) महायोजना/जोनल प्लान में स्थल की स्थिति।

(ङ.) प्रयुक्त पैमाना और उत्तर दिशा—सूचक।

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे:-

- (I) पैमाना तथा उत्तर दिशा—सूचक।
- (II) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
- (III) भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा 'रो-हाउसिंग', 'सेमी-डिटेच्ड' अथवा डिटेच्ड।
- (IV) सर्विसेज़ प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
- (V) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (VI) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन में प्रस्तावित हों), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।
- (VII) निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त (I) से (VI) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएगी।
- (VIII) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।
- (IX) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे:-
 - (क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल / हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

- (ख) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के "सरफेस-रन-आफ" को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।
- (ग) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
- (घ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।
- (ङ) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/ भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।
- (च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

2.1.2.6	विशिष्टियाँ	<p>भूखण्ड के उप-विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टियाँ व विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे :-</p> <p>(i) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यों यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पेविंग, नालियाँ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।</p> <p>(ii) स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएं यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल-निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सड़क, विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्रोत, इत्यादि।</p> <p>(iii) औद्योगिक इकाईयों की स्थिति में उत्सर्गों के प्रकार एवं मात्रा।</p> <p>(iv) विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।</p>
2.1.3	विकास अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना	<p>प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु जमा कराये जाने वाले शुल्क (विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश/प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।</p>
2.1.4	विकास अनुज्ञा हेतु अनुबन्ध	<p>विकास अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदक के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।</p>
2.1.5	विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता	<p>(i) एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>(ii) प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर अधिकतम तीन वर्षों हेतु समयावृद्धि दी जा सकती है।</p>
2.1.6	विकास के प्रारम्भ की सूचना	<p>अनुज्ञा के अधीन विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) में दी जाएगी।</p>
2.1.7	विकास के समय विचलन	<p>विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।</p>
2.1.8	पूर्णता प्रमाण-पत्र	<p>विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फॉर्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुलग्नक-2 के अनुसार होगी।</p>

2.2 खुले स्थान

- 2.2.1 (क) जोनल डेवलपमेंट प्लान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के उद्देश्य से जोनल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत जोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल/हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जायेगी।
- (ख) ले-आउट प्लान

- (i) आवासीय भू-उपयोग आवासीय ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे 'टाट-लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'गुप हाउसिंग' भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (ii) अनावासीय भू-उपयोग अनावासीय क्षेत्र के ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पट्टिकाएं और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले-आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) तथा (ii) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात् महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) एवं (ii) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप-विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा।

- 2.2.2 खुले स्थान के मानक
- (i) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा। स्थल की भौतिक आकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भिन्न आकार में खुले स्थान इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किए जा सकेंगे कि उनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो।
- (ii) खुले स्थान की सीमा यथास्थिति भूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ-वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ-वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ-वेज अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।

2.2.3 लैण्डस्केप प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी :-

- (i) 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (ii) औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन भी आवश्यक होगा जिसमें कुल खुले स्थल के भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।

- (III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
- (IV) वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
- (V) संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं, क्रीड़ास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (VI) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जाएंगे।

3.3 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)

- 3.3.1 सामान्य अपेक्षाएं समूह आवास/ग्रुप हाऊसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले-आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा। चार हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाऊसिंग योजनाओं में ले-आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा ले-आउट प्लान एवं भवन मानचित्र एक साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- 3.3.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।
- 3.3.3 पहुँच मार्ग ग्रुप हाऊसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। ग्रुप हाऊसिंग ले-आउट प्लान के अन्तर्गत वाहन योग्य मार्गों/सड़कों की चौड़ाई एवं लम्बाई इस उपविधि के प्रस्तर-2.3.1 (I) के अनुसार होगी।
- 3.3.4 स्टिल्ट फ्लोर (I) ग्रुप हाऊसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा।
(II) यदि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग से भिन्न उपयोग में लाया जाता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।
- 3.3.5 पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा लैंडस्केपिंग 3000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में योजना के कुल क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। भवन मानचित्र के साथ लैंडस्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा; जिसके अनुसार ग्रुप हाऊसिंग योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।
- 3.3.6 भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं घनत्व (I) 'ग्रुप हाऊसिंग भवनों में सैट-बैंक, भू-आच्छादन, तल क्षेत्रफल अनुपात एवं घनत्व निम्नवत् होगा:-
(क) 12.5 मीटर तक ऊँचाई के भवनों में चारों ओर न्यूनतम 5.0 मीटर सैट-बैंक होगा।
(ख) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रस्तर 3.4.5 पर दी गई तालिका के अनुसार सैट-बैंक।
(II) (i) अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। सुरक्षा जोन एवं संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।
(ii) ग्रुप हाऊसिंग परियोजना में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 0.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. कन्वीनिएंट शॉप्स के लिए अनुमन्य होगा।
(III) नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमन्य होगा तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा-वातानुकूलित संयंत्र, लिफ्ट के सामने (लिफ्ट के बाहर गलियारे को छोड़कर) 10 वर्ग मीटर तक लॉबी, मम्टी, लिफ्ट के लिए मशीन कक्ष, अलमारियां एवं

वे-विन्डोज (अधिकतम 0.60 मीटर गहराई एवं 1.80 मीटर लंबाई तक), रिफ्यूज एरिया (एन.बी.सी. के अनुसार), सर्विस डकट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अनुमन्य होगा।

ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

- (IV) नियोजित रूप से विकसित कालोनियों/क्षेत्रों, जिनके ले-आउट प्लान्स सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं, में भूखण्डीय विकास की पद्धति पर एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (V) नियमों के अन्तर्गत कय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (VI) "नए/अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के लिए जनसंख्या घनत्व 330 इकाईयां (1650 व्यक्ति) प्रति हेक्टेयर तक निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा, जबकि निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में ज़ोनल प्लान/ले-आउट प्लान अनुमोदित होने की दशा में तदनुसार घनत्व अनुमन्य होगा अन्यथा अधिकतम 150 इकाई प्रति हेक्टेयर तक घनत्व अनुमन्य होगा:-
- (i) 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 200 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।
- (ii) 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 250 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।
- (iii) 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर 330 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।"
- (VII) सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान इस उपविधि के प्रस्तर-2.4.1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। सुविधाजनक दुकानों का प्राविधान प्रति 1000 व्यक्तियों पर 5 दुकानों के आधार पर किया जाएगा, जो अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत ही होगा। प्रति दुकान का अधिकतम तल क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर होगा।
- (VIII) प्रवेश द्वार पर 1.6 वर्गमीटर माप का चौकीदार/गार्ड रूम (जिसकी न्यूनतम चौड़ाई अथवा व्यास 1.2 मीटर होगा) अनुमन्य होगा, परन्तु किसी भी दशा में अग्निशमन हेतु वांछित न्यूनतम सैट-बैंक में निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (IX) चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजना/भूखण्ड के लिए योजना/ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए "नेट" भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मी० एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।
- (X) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'बल्क' सेल के रूप में ग्रुप हाउसिंग हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर 2.5 एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि योजनान्तर्गत अन्य उपयोगों यथा-व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण के लिए एफ.ए.आर. उस उपयोग हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. की सीमा के अन्तर्गत रहेगा।

- (XI) ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के सेटबैक क्षेत्र के अंतर्गत बालकनी के प्रोजेक्शन्स इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होंगे कि अग्नि सुरक्षा हेतु फायर टैंडर के आवागमन हेतु भू-तल से न्यूनतम 6 मी० ऊँचाई का क्षेत्र अवरोध मुक्त रहेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन अनुमन्य नहीं होगा। 1.5 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबकि 1.5 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 3.0 मीटर चौड़ाई तक (स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित होने की दशा में) बालकनी के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी, परन्तु जहाँ दो भवनों के मध्य की दूरी 9.0 मीटर से कम हो वहाँ 1.5 मीटर से अधिक चौड़ी बालकनी अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत की जानी होगी।

3.3.7 पार्किंग व्यवस्था (I) पार्किंग हेतु मानक इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 के अनुसार होंगे।

E-mail:-dfonoida@gmail.com

Ph.No. 0120-2425989


कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक २१३५ / २९-१ गौतमबुद्धनगर दिनांक २ -12-2020।
सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- वर्ष 2021-22 वृक्षारोपण की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक के अनुपालन में इस वन प्रभाग से मॉगी गयी वर्ष 2021-22 वृक्षारोपण की कार्ययोजना संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक २१३५ / दिनांक ।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

जनपद वृक्षारोपण योजना - 2021


जनपद गौतमबुद्धनगर

1	जनपद का लक्ष्य (पौध संख्या लाख में) 10.27	विभागीय (पौध संख्या लाख में) 2.50	अन्य विभागीय (पौध संख्या लाख में) 7.019
2	श्रेणीवार लक्ष्य	विभाग	लक्ष्य (पौध संख्या लाख में)
		श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	2.86408
		श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	0.97040
		श्रेणी 3: कृषि विभाग	0.39612
		श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	6.03895
3	पुराने वृक्षारोपणों का रखरखाव	विगत वर्ष रोपित पौध (पौध संख्या लाख में)	बीटिंग अप हेतु पौधों की आवश्यकता (पौध संख्या)
	श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	3.95	0.39
	श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	0.661	
	श्रेणी 3: कृषि विभाग	0.341	
	श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	4.885	0.488
	कुल योग	9.84	0.878
4	गंगा यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में 500 मी0 दोनों तरफ कृषकों की भूमि रोपण	गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कृषकों की भूमि पर रोपित किए जाने वाले पौधों की संख्या (पौध संख्या लाख में)	यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में कृषकों की भूमि पर रोपित किए जाने वाले पौधों की संख्या (पौध संख्या लाख में)
	श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	-	-
	श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	-	-
	श्रेणी 3: कृषि विभाग	-	-
	श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	-	-
	कुल योग	-	-
5	ग्राम पंचायतों की संख्या 88	शहरी निकायों की संख्या 9	कुल संख्या 95
6	ग्राम पंचायतों में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 1.5	शहरी निकायों में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 8.77	रोपित किये जाने वाले पौधों की कुल संख्या 10.27

7	पौध उपलब्धता	पौधशालाओं की संख्या	वृक्षारोपण के समय पौध उपलब्धता (प्रस्तावित) (पौध संख्या लाख में)
		वन विभाग 07	10.37
		रेशम, उद्यान 0	0
		निजी 5	0.36
		कुल 12	10.73
8	वन विभाग द्वारा पौध आपूर्ति की स्थिति का आंकलन	विभाग	आपूर्ति की जाने वाली पौध संख्या (पौध संख्या लाख)
		श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	2.86408
		श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	0.97040
		श्रेणी 3: कृषि विभाग	0.39612
		श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	6.03895
		कुल योग	10.26955
9	वित्त पोषण	विभाग	वित्त पोषण का माध्यम विभागीय संसाधनों/मनरेगा/लाभार्थियों के माध्यम/अन्य
		श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	विभागीय बजट से
		श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	विभागीय योजनायें
		श्रेणी 3: कृषि विभाग	विभागीय योजनायें
		श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण,	विभागीय योजनायें
10	रोपण स्थलों की संख्या	विभाग	स्थल
		श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	35
		श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	314
		श्रेणी 3: कृषि विभाग	47
		श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण,	915
		कुल स्थल	1311 संख्या बढ़ भी सकती है।
	जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक के आयोजन की तिथि	निर्णय	अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं)

11	दिनांक 02.11.2020	1. विभाग को लक्ष्य विवरण			हाँ			
		2. विभागों द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत करना			हाँ			
		3. पंजीकृत कृषकों को लक्ष्य आवंटन			हाँ			
		4. एक दिन में वृक्षारोपण की रणनीति का निर्धारण						
		5. कोविड से सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन						
12	पीएम किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत पंजीकृत कृषक	संख्या	50413	अनुमानित पौध संख्या 0.50413				
13	कक्षा 6 व उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण	माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थाओं की 78			माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थाओं 0.026			
14	विभागों द्वारा प्रजातिवार पौध माँग की स्थिति	अन्य औद्योगिक व इमारती प्रजाति	पर्यावरणीय	चारा	औषधीय एवं शोभाकार	फलदार प्रजाति	सहजन	कुल योग
	श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	174200	35600	1150	38700	31900	4858	286408
	श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	34300	20100	950	21300	19010	1380	97040
	श्रेणी 3: कृषि विभाग	15400	1000	400	2800	16020	3992	39612
	श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	435000	25000	300	80000	48595	15000	603895
	कुल योग	658900	81700	2800	142800	115525	25230	1026955
15	श्रम दिवसों का आँकलन	अग्रिम मृदा कार्य			वृक्षारोपण			
	श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	2850			2850			
	श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	740			740			
	श्रेणी 3: कृषि विभाग	165			165			
	श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	2150			2150			
	कुल योग	3055			3055			
16	प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध श्रम दिवस (*बिन्दु 15 की सूचना का माग, यहाँ पृथक से अंकित करें)	अग्रिम मृदा कार्य.....1850			वृक्षारोपण....1850			
					अनुपालन की स्थिति			

17	कोविड - 19 से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए वृक्षारोपण किया जाना	1. जागरूकता, प्रचार प्रसार	किया जा रहा है।
		2. मास्क	श्रमिकों के लिये मास्क की व्यवस्था की गयी है।
		3. सैनीटाईजर का उपयोग	किया जा रहा है।
		4. सामाजिक दूरी	सामाजिक दूरी का पालन करते हुये वृक्षारोपण किया
		5. थर्मल स्क्रीनिंग	बजट की उपलब्ध के अनुसार प्रत्येक स्थ पर थर्मल
		6. जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन	किया जा रहा है।
18	निराश्रित गौ वंश स्थलों की संख्या 13	निराश्रित गौवंश स्थलों से प्रस्तावित जैविक खाद क्रय (मात्रा	निराश्रित गौवंश स्थलों से प्रस्तावित जीवामृत हेतु सामग्री
	श्रेणी 1: वन एवं पर्यावरण विभाग	0	-
	श्रेणी 2: ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज	0	-
	श्रेणी 3: कृषि विभाग	0	-
	श्रेणी 4: रेशम, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा व अन्य विभाग	0	-
	कुल योग	0	-


 प्रभागीय वनाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
 गौतमबुद्धनगर।

S.No	Site/Project Name	Site Incharge Mobile No	District	Date of Registration	Site Self Audit Status	Score	Grade	Physical Audit Date by UPPCB	Revised Score by RO/HQ
1	LCC	8126621186	Gautam Buddha Nagar	25-09-20	Enabled	0	-		0
2	Arena Superstructures Private Limited	8527150033	Gautam Buddha Nagar	24-09-20	Enabled	0	-		0
3	Design, Construction, Supply, Erection, Testing &	9650193877	Gautam Buddha Nagar	23-02-21	Enabled	0	-		0
4	ANTARA NOIDA	9811170825	Gautam Buddha Nagar	22-10-20	Enabled	0	-		0
5	C/o Underpass along M.P. road No. 3 at the junctio	9953590368	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Disabled	66	Poor		0
6	D/o Parthala Chowk (Construction of Flyover on Mas	9596122344	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Disabled	124	Excellent		0
7	AMRPALI SILICON CITY	7292051520	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Disabled	122	Excellent		0
8	Construction of Office Building	9205691171	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Enabled	0	-		0
9	Design, Construction, Supply, Erection, Testing &	9554957890	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Enabled	0	-		0
10	GODREJ NEST/GODREJ NURTURE	9999659349	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Enabled	0	-		0
11	Construction of Underpass Noida-EX at Ch. 2.36 KM	9205691103	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Enabled	0	-		0
12	Construction of 4.5 km long 6-Lane Elevated Road	9958001668	Gautam Buddha Nagar	22-02-21	Disabled	150	Excellent		0
13	OH MY GOD	9711008307	Gautam Buddha Nagar	20-10-20	Disabled	150	Excellent	19-02-21	45
14	Assotech celeste Towers	8448791443	Gautam Buddha Nagar	19-10-20	Enabled	0	-		0
15	Assotech Windsor court	8448791422	Gautam Buddha Nagar	16-10-20	Enabled	0	-		0

16	nursery school	9910157669	Gautam Buddha Nagar	16-10-20	Enabled	0	-		0
17	CYBERTHUM	9910153558	Gautam Buddha Nagar	13-10-20	Enabled	0	-		0
18	SKYMARKONE	7814288568	Gautam Buddha Nagar	13-10-20	Disabled	120	Excellent	19-02-21	97
19	M/s. Mango Infratech Solutions Pvt. Ltd.	9805392488	Gautam Buddha Nagar	12-10-20	Disabled	138	Excellent	19-02-21	0
20	M/s. L. M. Machinotech Pvt. Ltd. Office Building	9811407978	Gautam Buddha Nagar	12-10-20	Disabled	138	Excellent	19-02-21	0
21	Godrej palm retreat	9599680645	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	137	Excellent	20-02-21	79
22	Group Housing Project "Ace Parkway"	8920847015	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	139	Excellent		0
23	"Oxygen Boulevard (IT SEZ)"	9910772919	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	150	Excellent	19-02-21	96
24	Noida World One	8588831575	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	150	Excellent	19-02-21	97
25	Sikka Karnam Green	9711424181	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	138	Excellent		0
26	IT/ITES Park (M/S Aircon System (I) Private Limited)	9810156032	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	136	Excellent	27-10-20	0
27	Prestige Bougainvillae Gardens	8427006852	Gautam Buddha Nagar	10-10-20	Disabled	16	Poor	20-02-21	0
28	ATS Pristine Golf Villas	8588832368	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	145	Excellent	20-02-21	0
29	ATS Picturesque Reprieves & Kinghood Drive	9810247998	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	145	Excellent	20-02-21	0
30	samsung display noida private limited	9810046327	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	101	Very Good		0
31	Pious Hideaways	8130229267	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	148	Excellent	20-02-21	0
32	Gulshan Botnia	9650989219	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	136	Excellent	25-10-20	95
33	Sawasdee JLG Gallaria	9818770235	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	150	Excellent		0
34	Eureka Park	9884539540	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	143	Excellent	22-02-21	97
35	IT/ITES-SEZ Golden Tower	9581412765	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	150	Excellent	25-10-20	101

36	Seven R Hotels Pvt. Ltd.	9717700884	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	150	Excellent		0
37	ALPHA RESIDENCES, ABET Buildcon Pvt. Ltd.	7840080123	Gautam Buddha Nagar	09-10-20	Disabled	135	Excellent	22-02-21	0
38	ATS LE - GRANDIOSE	8377906935	Gautam Buddha Nagar	08-10-20	Disabled	148	Excellent	22-02-21	0
39	ATS KNIGHTBRIDGE & HUB	8221904101	Gautam Buddha Nagar	08-10-20	Disabled	148	Excellent		0
40	Wave City Centre	7838595716	Gautam Buddha Nagar	08-10-20	Disabled	143	Excellent	24-10-20	97
41	Gulshan Dynasty	8373919222	Gautam Buddha Nagar	08-10-20	Disabled	146	Excellent	25-10-20	95
42	Gulshan One29	8373919284	Gautam Buddha Nagar	08-10-20	Disabled	130	Excellent	25-10-20	99
43	Proposed Residential Project "The Resident Tower"	7838191972	Gautam Buddha Nagar	08-10-20	Disabled	150	Excellent		0
44	WINDSOR COURT	8448289464	Gautam Buddha Nagar	06-10-20	Enabled	0	-		0
45	August Residency Pvt. Ltd.	9811180153	Gautam Buddha Nagar	06-10-20	Disabled	122	Excellent	25-10-20	99
46	Group Housing Project 'Mahagun Meadows'	9999126789	Gautam Buddha Nagar	05-10-20	Disabled	132	Excellent		0
47	PIOUS HIWAYS	8860616717	Gautam Buddha Nagar	05-10-20	Disabled	150	Excellent		0
48	Windsor Grand	9810500195	Gautam Buddha Nagar	05-10-20	Disabled	129	Excellent	22-02-21	0
49	Greatvalue Anandam	9718222020	Gautam Buddha Nagar	03-10-20	Enabled	0	-		0
50	SPECTRUM@METRO	9310234107	Gautam Buddha Nagar	01-10-20	Disabled	129	Excellent	24-10-20	99
51	SPECTRUM@METRO-2	9310234159	Gautam Buddha Nagar	01-10-20	Disabled	124	Excellent	24-10-20	101
52	Mahagun Manorial	9711131676	Gautam Buddha Nagar	01-10-20	Disabled	127	Excellent	19-02-21	0
53	Mahagun Mezzaria	9310638221	Gautam Buddha Nagar	01-10-20	Disabled	88	Satisfactory	24-10-20	77

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

मान्यता प्राप्त प्रदूषण जाँच केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम व पता	कोड नं०	मान्यता की अवधि		श्रेणी	संयन्त्र का प्रकार		अभियुक्ति
			कब से	कब तक		पेट्रोल	डीजल	
1	मै० मोटर काफ्ट इण्डिया प्रा० लि०, 18/सी०-29, सैक्टर-1, नौराजा।	-	29.06.1996	-	पेट्रोल			
2	मै० भागवती सर्विस स्टेशन, वाई०-349, डी.-सैक्टर-12, नौराजा।	P-100 D-235	09.04.1997 10.12.1999	-	पेट्रोल डीजल पेट्रोल व डीजल	Airtson:- OM-1100 AE-50113	Manatec Ele:- ECO SMOKE-100 Sr No SM- 1000511	
3	मै० डोली मोटर्स, अमरताया रोड, सैक्टर-21 / ए०, निबर स्ट्रेडियम, नौराजा।	P-134 D-160	20.09.1997 28.03.1998	-	पेट्रोल डीजल			
4	मै० नौराजा आटोमोबाइल्स, सैक्टर-4, नौराजा।	P-145 D-156 नवीनी	25.10.1997 20-01-1998 12-06-2017	-	पेट्रोल डीजल	Airtson:- OM-1100 AE-50466	Manatec Ele:- ECO SMOKE-100 Sr No SM- 1001207	निरस्त हेतु मुख्यालय प्रेषित
5	मै० मंगलम मोटर्स, सी०-4, सैक्टर-57, नौराजा।	264	23.06.2000	-	पेट्रोल व डीजल			
6	मै० विशम्बर सहाय एण्ड संस, एक्सप्रेस हाइवे, सैक्टर-18, एम०पी० रोड-2, नौराजा।	317	24.01.2002	-	पेट्रोल			
7	मै० आर० पी० एल० वैलकपर सोसायटी, ग्राम-डुडा(भगेल), फेस-11, नौराजा। कार्यस्थल:-मै० श्रीराम धर्म काटा, होजरी काम्पलेक्स, श्रीन बैल्ट बी, वाटसी रोड, फेस-11, नौराजा।	350	03.12.2002	-	पेट्रोल व डीजल	AVL:- AVL-422 No 0791	Hariwill:- V-2005 No 6128	
8	मै० बडल मोटर्स, डी०-137, सैक्टर-10, नौराजा।	-	10 05.10.20	-	पेट्रोल व डीजल	Hariwill V-2001 HGA-9284	Hariwill Smoke V-2005 No. 6124	
9	मै० लो विजयन्त मोटर्स, जे०-14(बी०), सैक्टर-41, नौराजा।	P-339 D-419 नवीनी	06.09.2002 19.08.2004 19.09.2017	-	पेट्रोल डीजल	Airtson:- OM-1100 AE-50159	Manatec Ele:- ECO SMOKE-100 Sr No SM-	

18	श्री विपुल मोटर्स लिमिटेड, डी-125, सैक्टर-5, नौरा, गौतमबुद्धनगर।	457	28.12.2005	-	शैटल	AVL:- Gass-444 Sr.No-212		पता परिवर्तन एवं डीजल की मास्यता हेतु मुख्यालय में विचारधीन
19	श्री सुमन आर्टोज, डी0-77, 78, सैक्टर-2, फेस-1, नौरा, गौ0नगर।	437	08.12.2004	-	पैट्रोल	AVL:- AVL-422 Sr.No-0688		
20	श्री0 तरुण पर्यावरण समिति, ग्रा0वशी0-धूमनातिकपुर, दादरी, नौरा, गौ0नगर। कार्यस्थल:-श्री0 नन्दनी फिल फाइन्ड, शाहपुर, बमेटा,22-23, कि0मी0 पथर के बीच, नेशनल हाइवे न0-24, गाजियाबाद।	423	26.08.2004	-	पैट्रोल व डीजल			
21	श्री0 जैन सर्विस स्टेशन, सैक्टर-54, नौरा, गौतमबुद्धनगर।	P-443 नवीनी0 D-1326	10.01.2005 21-06-2017 18-08-2017	- 20.06.2022 17.08.2022	पैट्रोल डीजल	Airson:- OM-1100 AE-50513	Manatec Ele:- ECO SMOKE-100 Sr.No SM- 1001216	
22	श्री0 नवरतन सेवा समिति, ए-56, (शुजी0एफ0) सूर्यनगर, गाजियाबाद। ए-कार्यस्थल:-श्री0 कुन्दन लाल एण्ड संस, पी0पी-2 सैक्टर-71, अर्वाजिट साईं मन्दिर, नौरा, गौ0नगर।	469 नवीनी0 D-1326	13.04.2006 26.07.2016	12०01०२014 12०01.2019	पैट्रोल			निरस्त हेतु मुख्यालय प्रेषित
23	श्री0 उलम टोपटा, अधिकृत सर्विस स्टेशन, डी0-7, सैक्टर-8, नौरा, गौ0नगर।	D-474 P-735	26.06.2006 28.03.2011	27०03०२016	डीजल पैट्रोल	Harwill P-10 No-0023		
24	श्री0 शहीद मेजर अनुराग कनविनियस आरकेड, अधिकृत डीजल इन्डियन आयल कारपोरेशन लि0, सैक्टर-52, निकट साईं टैम्बल, नौरा।	P-459 D-583 नवीनी0	09.01.2006 12.02.2009 13-08-2015	वित्त 5 लमंत 12.08.2020	पैट्रोल डीजल		AVL:- 437-C 2410	
25	श्री0 कन्सेट ओटोमोबाइल्स प्रा0 लि0, अधिकृत सेल्स एण्ड सर्विस, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ए0-9, सैक्टर-2, नौरा।	492	15.02.2007	-	डीजल		AVL:- 437-C 1870	
26	श्री0 रोहन मोटर्स लि0, 63-ए0, उद्योग विहार ग्रेटर नौरा।	500	22.05.2007		पैट्रोल व डीजल	AVL:- AVL-444 Sr.no 512	AVL:- 437-C 2180	
27	श्री0 जो0 के0 एम0 मोटर्स प्रा0 लि0, ए0-25, सैक्टर-9, नौरा।	P-512 D-1134	10.08.2007 29.10.2015	- 28.10.2010	पैट्रोल	AVL:- DaiGass-444 No 0411	AVL:- 437-C 3539	
28	श्री0 तान्या जनकल्याण सेवा समिति, गली न0-1, सैक्टर-44, छलेरा, गौ0नगर।	513 नवीनी0	10.08.2007	27.04.2012 27.04.2017	पैट्रोल व डीजल	Indus:- PEA-205 P-5114	Manatec Eco-smoke EM-046	

	कार्यस्थल:- नं० शाहीद चमन पेट्रोलियम पी०पी०-2. एनपी-2 रोड, सैक्टर-54, गौ०नगर।							
29	नं० पदम पेट्रोलियम, शाहीद पदम सिंह घाणा मार्ग, सैक्टर-63, नौरडा, गौ०नगर।	539 नवीनी	04.03.2008 19.09.2017	18.09.2022	पेट्रोल व डीजल	Alrson:- OM-1100 AE-50029	Mamatic Ele:- ECO SMOKE-100 Sr No SM- 1001208	
30	नं० नवका एन्टरप्राइज (प्रा०ल०) (एस०इ०को०डा), डी-25, सैक्टर-11, नौरडा, गौ०नगर।	P-556 D-935	06.06.2008 08.05.2014	& 07.05.2019	पेट्रोल डीजल			
31	नं० आभिवेक लोहिया पर्यावरण समिति, ग्राम-रूड, सैक्टर-80, फेस-2, नौरडा। ए-कार्यस्थल:- नं० मोहन रिवा साविस स्टेशन, रूडपुर-कसाना रोड, घांवल, गौ०नगर।	P-565	03.10.2008	17.06.2013	पेट्रोल			नोटिस
32	नं० अनुभव पर्यावरण सेवा समिति, ग्राम-छिपियाना बुजुर्ग, थाना-विजयनगर, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- नं० सतीश चन्द्र एण्ड कम्पनी, नौरडा रोड, दादरी, गौतमबुद्धनगर।	638 नवी	14.01.2010 15-10-2014	14.10.2014 14.10.2019	पेट्रोल व डीजल			
33	नं० कर्णवाल आटोमोबाइल्स, मुलीस्नानपुर देवला, ग्रेटर नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	637	14.01.2010	13.01.2015	पेट्रोल व डीजल	Indus:- PEA-205 P-5651	Indus:- smoke meter O-1783	नोटिस
34	नं० अभिवेक लोहिया पर्यावरण समिति, ग्राम-रूड, सैक्टर-80, फेस-2, नौरडा। ए-कार्यस्थल:- नं० आभ मोटर्स, ग्राम तुगलपुर नियर पेट्रोल पम्प, ग्रेटर नौरडा।	726	23.12.2010	17.06.2013	पेट्रोल व डीजल			नवीनीकरण हेतु विचारणीय
35	नं० हर्ष पर्यावरण समिति, पी-486, सदरपुर कॉलोनी, नियर इन्मान मन्दिर, सैक्टर-44, नौरडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- नं० अनिल आर्ट्स सर्विस, पीपी-1, डेल्टा-1, ग्रेटर नौरडा, गौ०नगर।	730	25.01.2011	18.11.2015	पेट्रोल व डीजल			
36	नं० सांघरी पर्यावरण सेवा समिति, जे-214, सैक्टर-22, नौरडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- नं० श्यामनगर सर्विस स्टेशन, सिकन्द्राबाद-दनकौर रोड मण्डी श्यामनगर, नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	739	28.04.2011	27.06.2015	पेट्रोल व डीजल			
37	साई पर्यावरण सेवा समिति, 236-सेनी ऑ. सेनी, तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- नं० अर्जुन साविस स्टेशन, एन०एच०-91(जी०टी०रोड) ग्राम-अच्छा, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर।	742 नवी०	09.05.2011 26.07.2016	04.03.2016 30.09.2016	पेट्रोल व डीजल	Indus:- PEA-205 Sr No. P-6044	Indus:- ONMS-101 Sr No O-1864	

38	श्री शशि वैलफेयर सोसायटी, जे-171, बीट-2, ग्रेटर नौरडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- श्री अदिति टी0वी0एस0 सैक्टर-10, नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	766	11.01.2012	30.03.2016	पेट्रोल व डीजल			निरस्त हेतु मुख्यालय प्रेषित
39	श्री अभिषेक लोडिया पर्यावरण समिति, ग्राम-भूडू, सैक्टर-80, फंस-2, नौरडा। पू-कार्यस्थल:- श्री जे0आर0ओ0 ग्रेटर नौरडा(इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प), प्लाट नं0-41, उद्योग विहार अपोजिट मोटर बीयर ग्रेटर नौरडा।	779	21.05.2012	17.06.2013	पेट्रोल व डीजल			नवीनीकरण हेतु विचाराधीन
40	श्री मोहित पर्यावरण समिति, ग्राम व पोस्ट हाजीपुर, सैक्टर-104, नौरडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- श्री षहीद देवराज फिलिंग स्टेशन, सैक्टर-105, नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	780	21.05.2012 16.12.2016	15.12.2016 15.12.2021	पेट्रोल व डीजल	Aison:- OM-1100 AE-50180	Manatec Elic:- ECO SMOKE-100 Sr.No SM- 1000044	
41	श्री फेयर डील कार्स(प्रा0 लि0), डी-393, सैक्टर-10, नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	793	30.05.2012	29.05.2017	पेट्रोल व डीजल			
42	श्री नेवर पर्यावरण समिति, बी-4, जीतराम कॉलोनी, ग्राम भंगोल, नौरडा, जिला-गौ0नगर, प्रथम कार्या0-श्री एचपी सेंक्टर, एचपीसीएल, पेट्रोल पम्प, सैक्टर-82, नौरडा, गौ0नगर)	832	24-12-2012 03-12-2017	02-11-2017 02-11-2022	पेट्रोल व डीजल			
43	श्री नेवर पर्यावरण समिति, बी-4, जीतराम कॉलोनी, ग्राम भंगोल, नौरडा, जिला-गौ0नगर, द्वितीय कार्या0-श्री एचपी सेंक्टर, एचपीसीएल, पेट्रोल पम्प, सैक्टर-51, नौरडा, गौ0नगर)	833	24-12-2012 03-11-2017	02-11-2017 02-11-2022	पेट्रोल व डीजल			
44	श्री नेवर पर्यावरण समिति, बी-4, जीतराम कॉलोनी, ग्राम भंगोल, नौरडा, जिला-गौ0नगर, तृतीय कार्या0-श्री आर्टो केयर सेंक्टर (एचपीसीएल पेट्रोल पम्प) कसाना रोड, ग्रेटर नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	834	24-12-2012 03-11-2017	02-11-2017 02-11-2022	पेट्रोल व डीजल			
45	श्री अन्सारी पर्यावरण समिति, 95-ग्रा0 मामूरा, तह0-वादरी, नौरडा, गौ0नगर। कार्या0-श्री ईश्वर फिलिंग स्टेशन, आईओसीएल डीलर, प्लाट नं0-1, एचएफ-1, उद्योग केन्द्र, ग्रेटर नौरडा, गौ0नगर।	900	18.12.2013	22.07.2018	पेट्रोल व डीजल			
46	श्री फास्ट ट्रेक आर्टो केयर(इण्डिया), ग्रा0लि0ए-31, सैक्टर-63, नौरडा, गौतमबुद्धनगर।	913	28.01-2014	27.01.2019	पेट्रोल			निरस्त हेतु मुख्यालय प्रेषित

47	शै0 मोहित पर्यावरण समिति, ग्रा0वपो0 हाजीपुर, सैक्टर-104, नौरडा, गौ0नगर, द्वितीय कार्य0-शै0 चौधरी आटे0 मोबाइल (आईओसीएल पैट्रोल पम्प)/डोजरी कामचलैक्स, ग्रीन वेल्ड-बी, नौरडा, गौ0नगर	922 नवीनी	21.02.2014 16-12-2016	15*12*2016 15*12*2021	पेट्रोल व डीजल	Airson:- OM-1100 AE-50454	Nviro Eic Pvt Ldi- NPM-SM- 111B Sr.No. -1217		
48	शै0 नेचर पर्यावरण समिति, बी-4, जीतराम कॉलोनी, ग्राम भंगोल, नौरडा, जिला-गौ0नगर, चतुर्थ कार्य0-शै0 एच0पी0सेक्टर, एचपीसीएल पैट्रोल पम्प, सैक्टर-62, नौरडा, गौ0नगर।	963 नवीनी	18.07.2014 03-11-2017	02.11.2017 02.11.2022	पेट्रोल व डीजल				
49	शै0 नेचर पर्यावरण समिति, बी-4, जीतराम कॉलोनी, ग्राम भंगोल, नौरडा, जिला-गौ0नगर, पंचम कार्य0-शै0 आटे0 केयर सेक्टर, एचपीसीएल, पैट्रोल पम्प, कसाना रोड, ग्रेटर नौरडा, गौ0नगर)	965 नवीनी	18-07-2014 03-11-2017	02.11.2017 02.11.2022	पेट्रोल व डीजल				
50	शै0सिल्वर एरो आटे0मोबाइल प्रालि0, डी-7, सैक्टर-8, नौरडा, गौ0नगर।	978	07.08.2014	06.08.2019	पेट्रोल व डीजल				
51	शै0जय माता देी पर्यावरण सेवा समिति, 500, सदरपुर सैक्टर-45, नौरडा सहसील दादरी, जिला गौ0नगर। कार्यस्थल:-शै0 के0बी0एस0 मोटर्स, (अधिकृत डीलर आईओसीएल), एन0एच0-91, नियर टोल प्लाजा, गुहारली, गौ0नगर।	986	10.10.2014	02.04.2019	पेट्रोल व डीजल				
52	शै0 अभिशेक लोडिया पर्यावरण समिति, ग्रा0 भूडा, सैक्टर-80, फेस-2, नौरडा, चतुर्थ कार्यस्थल-कोको-1, इण्डियन ऑयल पैट्रोल पम्प, प्लॉट नं0-एच0एफ0-1, उद्योग केन्द्र, ग्रेटर नौरडा, गौ0नगर	812	19.09.2012	17.06.2013	पेट्रोल व डीजल				
53	शै0सर्प राधेधाम पर्यावरण संस्थान, ग्रा0नं0 ई-207, मोडला, बीट-1, ग्रेटर नौरडा, ग्राना-कसाना, गौ0नगर, कार्यस्थल-शै0 नेषनल आटे0 मोबाइल, एनएच-91, प्लॉट नं0-230-231, जी0टी0रोड, ग्रा0-छपसैला, गौ0नगर	867	02.07.2013	29.11.2017	पेट्रोल व डीजल				
54	शै0 नेचर वेल्डकेयर एसोसिएशन, ए-54, सैक्टर-26, नौरडा, गौ0नगर। प्रथम कार्यस्थल-शै0 बीपीसीएल (कोको पैट्रोल पम्प), सैक्टर-35, नौरडा, गौ0नगर।	997	17-10-2014/ 07-09-2015	27-05-2019	पेट्रोल व डीजल				

55	शे0 नेचर वैलफेयर एसीसिएशन, ए-54, सैक्टर-26, नोएडा, गौ0नगर। तृतीय कार्यस्थल-शे0 बीपीसीएल (कोको पैट्रोल पम्प), बाजपुर, इन्स्टीटयूशनल एरिया, समर टैंक, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौ0नगर।	1000	17-10-2014/ 07-09- 2015	27.05.2019	पेट्रोल व डीजल			
56	शे0 नेचर वैलफेयर एसीसिएशन, ए-54, सैक्टर-26, नोएडा, गौ0नगर। तृतीय कार्यस्थल-शे0 बीपीसीएल (कोको पैट्रोल पम्प), स्काट नं0-2 सी, नॉलिन पार्क-1, ग्रेटर नोएडा, गौ0नगर।	1001	17-10-2014/ 07-09- 2015	27.05.2019	पेट्रोल व डीजल			
57	शे0 कान्सेट आटोमोबाइल्स, बी-5, 6 एवं 7, सैक्टर-60, नोएडा, गौ0नगर	1028	01-01-2015	31.12.2019	पेट्रोल व डीजल			
58	शे0 अष पर्यावरण सेवा समिति, बी-4, जीतराम कालोनी, भरोल, नोएडा, गौ0नगर। कार्यस्थल-शे0 अशीराज एच0पी0, खसरा नं0-118, ग्राम अशीनाबाद, बालक इण्टर कॉलेज के पीछे नोएडा, गौ0नगर	1048	24-02-2015	14.09.2019	पेट्रोल व डीजल.			
59	शे0 जेवर क्लिनिंग स्टेशन, आईओसीएल पैट्रोल पम्प, खुर्जा रोड, जेवर, जिला-गौतमबुद्धनगर।	1058	27-03-2015	26.03.2020	पेट्रोल व डीजल			
60	शे0 नेचर वैलफेयर एसीसिएशन, ए-54, सैक्टर-26, नोएडा, गौ0नगर। चतुर्थ कार्यस्थल-शे0 मलिक पयूल सेंटर, बीपीसीएल पैट्रोल पम्प, 1138 कोट, एनएच-91, दादरी, गौ0नगर।	1111	31-07-2015/ 28-09- 2015	27.05.2019	पेट्रोल व डीजल			
61	शे0 बाबा पर्यावरण सेवा समिति, भरमपुरी बस्ती, मंडी ब्यामनगर, जिला-गौ0नगर कार्यस्थल-शे0 सेवियर क्लिनिंग स्टेशन, पीपी-1, सैक्टर-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1104	22-06-2015	02.01.2020	पेट्रोल व डीजल	i3SYS EPM-1601 Sr No G-0389	i3SYS OSM-101 Sr No O-2074	
62	शे0 जे0के0एम0 मोटर्स प्रा0लि0, ए-25 सैक्टर-9, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1134	29-10-2015	30.10.2020	पेट्रोल व डीजल			
63	शे0 अनिल आर्टो सर्विस, डीलर आईओसीएल पैट्रोल पम्प, पीपी-1, डेव्ट-1, ग्रेटर नोएडा, गौ0नगर।	1150	25-01-2016	24.01.2021	पेट्रोल व डीजल			

64	शै0 ओम बैलफेर सोसायटी, जी-3ए, सेक्टर-15, पोस्ट-सेक्टर-20, नोयडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- शै0 जय श्रीराम धर्म कौंटा, जी-3ए, सेक्टर-15, पोस्ट-सेक्टर-20, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	1192	06-09-2016	17.04.2021	पेट्रोल व डीजल			
65	शै0 लक्ष्य पर्यावरण सेवा समिति, शै0 कारून गोथान, जेवर, जिला-गौतमबुद्धनगर। प्रथम कार्यस्थल:-शै0 चन्द्रप्रकाश एण्ड सभ, बस स्टैण्ड, दनकौर, गौतमबुद्धनगर।	1193	06-09-2016	14.01.2021	पेट्रोल व डीजल			
66	शै0 ओम साईं पर्यावरण सेवा समिति, म00नं0-169, ग्राम-चिपियाना, बुजुर्ग दादरी, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:-शै0 ओम साईं फिलिंग स्टेशन, पीपी-01/जीएच-3, सेक्टर-18 सी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	1230	05-12-2016	14.01.2021	पेट्रोल व डीजल			
67	शै0 अजय जनकल्याण सेवा समिति, म0नं0-219, प्रधान मार्केट, सेक्टर-35, नोएडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:-शै0 राजीव फिल एण्ड ड्राईव से0-32, अपोजिट एन0टी0पी0 सी0 बिल्डिंग, नोएडा, गौ0नगर।	1243	20-01-2017	30.12.2020	पेट्रोल व डीजल			पता परिवर्तित दि 25.05.18 से
68	शै0 मधुर बैलफेर सोसायटी, 36 ग्राम हतेवा, पोस्ट-बिलासपुर, जिला-गौ0नगर। कार्यस्थल:-शै0 कसाना मोटर्स डीलर-आईओसीएल पेट्रोल पम्प, पी-1, सेक्टर-ईकोटेक-1, (एक्सटेंशन), ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1277	02-05-2017	20.10.2021	पेट्रोल व डीजल			
69	शै0 इन्द्रप्रस्थ पर्यावरण सेवा समिति, डी-186, निकट केसर बाग बसोला, सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:-शै0 मंगलम एचपीसीएल पेट्रोल पम्प, बुहारपुर, यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर, निकट आम्रपाली कैसर, सेक्टर-सीएचआई-5, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1294	01-06-2017	02.10.2021	पेट्रोल व डीजल			
70	शै0 वष पर्यावरण समिति, म0नं0-500, सदरपुर कालोनी, सेक्टर-45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर। कार्यस्थल:- शै0 वर्कशॉप पीपी-1, सेक्टर-44, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1306	23-06-2017	30.01.2022	पेट्रोल व डीजल			

71	शै0 एरवन आटोमोटिव्वा, एच-5, सैक्टर-63, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	1336	06-10-2017	05.10.2022	पेट्रोल व डीजल				
72	शै0 पीएल0एस0 आटोमोबाईल सर्विसेज प्रा0लि0, खसरा नं0-279, ग्राम खेड़ा, चौगनपुर, ईकाटेक-111, केज-1, जिला-गौतमबुद्धनगर।	1394	21-01-2018	24.01.2023	पेट्रोल				
73	शै भालिक पर्यावरण सेवा समिति, कृष्ण पब्लिक स्कूल के पास, भगेल बेगमपुर, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर। द्वितीय कार्यस्थल:-शै0जे0पी इन्फ्राटेक लि0, किमी0-35, यमुना एक्सप्रेसव्, जिला-गौतमबुद्धनगर।	1407	16-03-2018	26.04.2022	पेट्रोल व डीजल				
74	शै0 विपिन पर्यावरण सेवा समिति, ग्राम-नगला पदम सिंह, पोस्ट-रबपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर। द्वितीय कार्यस्थल:-शै0 कोको, 16-थी, प्लाट नं0-पीपी-01, सैक्टर-16थी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1408	16-03-2018	19.04.2022	पेट्रोल व डीजल				निरस्त हेतु मुख्यालय प्रेषित
75	शै0 मलिक पर्यावरण सेवा समिति, कृष्ण पब्लिक स्कूल के पास, भगेल बेगमपुर, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर। प्रथम कार्यस्थल:-शै0 जे0पी0इन्फ्राटेक लि0, कि0मी0-16,यमुना एक्सप्रेसव्, जिला-गौ0नगर।	1423	16-05-2018	26.04.2022		Alivisor Tech:- AVG-500 Sr.no-G-024	Indus:- smoke meter OMS-104 Sr.no- 014		
76	शै0 विपिन पर्यावरण सेवा समिति, ग्राम-नगला पदम सिंह, पोस्ट-रबपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर। द्वितीय कार्यस्थल:-शै0 कोको, पी0आई0, प्लाट नं0-पीपी-01, सैक्टर-पी0आई0, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1424	16-05-2018	19.04.2022		Indus:- PEA-205N P-242	Indus:- smoke meter OMS-104 Sr.no- 0025		
77	शै0 विपिन पर्यावरण सेवा समिति, ग्राम-नगला पदम सिंह, पोस्ट-रबपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर। प्रथम कार्यस्थल:-शै0 आयुष सर्विस स्टेशन, फिजापुर किमी0 स्टेन-18, गौ0नगर।	1430	23-05-2018	19.04.2022		Indus:- PEA-205N P-274	Indus:- smoke meter OMS-104 Sr.no- 0009		
78	शै0 अमन पर्या0 समिति, ग्राम-प्यावली, पोस्ट-जैतवारपुर, हैबतपुर, जिला-गौ0नगर। कार्यस्थल:-खसरा नं0-272, स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स भवकांटा, हैबतपुर, दादरी, जिला-गौ0नगर	1431	23-05-2018	30.03.2022		Indus:- PEA-205N P-276	Indus:- smoke meter OMS-104 Sr.no- 011		
79	शै0 श्री शिव शंकर पर्या0 समिति, म0नं0-10 रिडपाल गद्दी, चिपियानाबुर्द, गौ0नगर। कार्यस्थल:-शै0 त्यागी ब्रदर्स फिलिंग स्टेशन, आई0ओ0सी0एल0 डीलर, 27 मार्डल स्टेन, एन0एच0-91, छपरवा, तहसील दादरी, जिला-गौ0नगर।	1449	12-06-2018	08.11.2022		Aitson:- OM-1100 AE-50557	Manatec Ele:- ECO SMOKE-100 Sr.No SM- 1001342		

80	शे0 विपुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (मालुति सुजुकी अधिकृत डीलर), जे0-14, सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1517	06.12.2018	05.12.2023	पेट्रोल व डीजल			
81	शे0अंकित पर्यावरण समिति, म0न0-15, गली नं0-25, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर। द्वितीय कार्यस्थल-शे0वैशरी रामचन्द्र सिंह भाटी एण्ड सन्स(आईबीपी पेट्रोल पम्प) ग्राम बिथौडा, पोस्ट-दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।	1593	14.06.2019	21.01.2024	पेट्रोल व डीजल			
82	शे0अंकित पर्यावरण समिति, म0न0-15, गली नं0-25, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर। प्रथम कार्यस्थल-शे0कुन्दन लाल एण्ड सन्स, पी0पी0-2, सेक्टर-71, अपोजिट साईं मंदिर, नोएडा, गौ0नगर।	1594	14.06.2019	21.01.2024	पेट्रोल व डीजल			
83	शे0अंकित पर्यावरण समिति, म0न0-15, गली नं0-25, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर। तृतीय कार्यस्थल-शे0सूरजपुर सेल्स एण्ड सर्विस स्टेशन (आईओसीएल पेट्रोल पम्प) दादरी, नोयडा रोड, सूरजपुर, जिला-गौतमबुद्धनगर।	1595	14.06.2019	21.01.2024	पेट्रोल व डीजल			
84	शे0 शहीद रमन् प्रताप सिंह किलिंग स्टेशन (पी0पी0सी0एल0 डीलर) सेक्टर-95, नोएडा, गौ0नगर	1597	25.06.2019	24.06.2024	पेट्रोल व डीजल			
85	शे0 विष्णु पर्यावरण सेवा संस्थान, हाउस नं0-95, सेक्टर-49 बसोला, गौ0नगर। कार्यस्थल:-कोको-3, सेक्टर-पी0आई0, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1605	02.07.2019	30.08.2023	पेट्रोल व डीजल			
86	शे0 रोहन मोटर्स लिमिटेड (मालुति सुजुकी अधिकृत डीलर) सी-9, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	1622	31.07.2019	30.07.2024	पेट्रोल व डीजल			
87	अग्रान पर्यावरण सेवा समिति पीपी-001, 16वीं, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर				पेट्रोल व डीजल			
88	जय माता दी पर्यावरण सेवा समिति के0बी0एस0 मोटर्स, एनएच-91, तुडारली, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			
89	जय माता दी पर्यावरण सेवा समिति के0बी0एस0 मोटर्स, डीलर आईओसीएल, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			

90	चौबिशी रामदास पर्यावरण सेवा समिति सी-31/17, सेक्टर-12, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			
91	चौबिशी दरियाम जनकल्याण सेवा समिति भैरव चौबिशी केशराम श्यामो आँटो फयूल्स, गाव हवीबापुर, इंको-3, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			
92	नेवर पर्यावरण सेवा समिति एचपीसीएल पेटाल पम्प, सेक्टर-82, नोएडा, गौतमबुद्धनगर				पेट्रोल व डीजल			
93	नेवर पर्यावरण सेवा समिति पेटेल पम्प, निअर परी चौक, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर				पेट्रोल व डीजल			
94	नेवर पर्यावरण सेवा समिति एचपी सेक्टर, सेक्टर-82, नोएडा, गौतमबुद्धनगर				पेट्रोल व डीजल			
95	नेवर पर्यावरण सेवा समिति गोल्फ कार्स कासना ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर				पेट्रोल व डीजल			
96	राधेश्याम पर्यावरण सेवा समिति शॉप नं0-1, मानिकपुर बार्डिंग रोड दादरी, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			
97	विपिन पर्यावरण सेवा समिति पीआई-18, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			
98	विपिन पर्यावरण सेवा समिति आयुष साविस स्टेशन, मिर्जापुर, एमटीएन-18, गौतमबुद्धनगर।				पेट्रोल व डीजल			

Regarding List of NGI Station of Gautambudh Nagar

SL.NO	STATION NAME
1	GREATER NOIDA BEETA -2
2	IT CITY, GREATER NOIDA
3	KASNA
4	KP-5
5	NOIDA 82
6	NOIDA SEC 105
7	NOIDA SEC 122
8	NOIDA SEC 142
9	NOIDA SEC 90 HYBRID
10	NOIDA SECTOR 51
11	NOIDA SECTOR 53
12	NOIDA SECTOR 71
13	NOIDA-88
14	SURAJPUR
15	NMRC - DEPOT SEC 90
16	NOIDA DTC DEPOT
17	SECTOR 35 DEPOT
18	SHRI DAUJI FUEL STATION
19	K W FUELS
20	Choudhary Keshram
21	CRC BHARTI
22	IOCL COCO-16B Station
23	IOCL COCO-PI Station
24	Ishwar F/S
25	Jaypee Infra KM-16
26	JAYPEE INFRATECH KM 35
27	JRO UDYOG VIHAR
28	KASNA MOTORS
29	KBS MOTORS
30	NOIDA AUTOMOBILES
31	OM SAI
32	PADAM PETROLEUM
33	Rajeev Fill & Drive
34	SHEETAL AUTOMOBILES SS
35	BPCL SEC 10
36	CHAUDHARY CHANDRA PRAKASH
37	GAUAV HP
38	AUTO CENTER (VENICE MALL)
39	MAA VAISHNO FILLING STATION
40	SHIV MOHAN SS
41	TYAGI BROTHERS FILLING ST
42	KIRAN FILLING STATION
43	Shaheed Ramendra Pratap
44	SUBASH AUTOMOBILE
45	BHAGWATI S S
46	HP CENTRE 62
47	KUNDAN LAL
48	Shubh HP



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.....C-32200 /CL/ 294B/ AC.P-1/19-20

दिनांक

Date ...S: 2.1.2020

सेवा में,

अतिरिक्त महानिदेशक,
यातायात पुलिस निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
वृन्दावन योजना, सेक्टर-18, रायबरेली रोड,
लखनऊ-226301।

विषय: उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्मित कार्ययोजना के संबंध में माइक्रोप्लानिंग किये जाने हेतु वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अर्न्तगत जारी निर्देश के संबंध में।

यह कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-681/2018 में दिनांक 08.10.2018 के द्वारा नॉन अटैन्मेंट शहरों से संबंधित सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" का गठन किये जाने, "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" द्वारा 02 माह के अन्दर नॉन अटैन्मेंट शहरों की वायुगुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने एवं कार्ययोजना के लागू होने से 06 माह के अन्दर नॉन अटैन्मेंट शहरों की वायुगुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप लाये जाने हेतु आदेश पारित किये गये थे।

यह कि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों यथा आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली तथा वाराणसी की वायुगुणता में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने हेतु दिनांक 02.01.2019 को "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" गठित की गयी एवं "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" द्वारा प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायुगुणता के सुधार हेतु कार्ययोजना बनायी गयी। कमेटी द्वारा बनायी गयी कार्ययोजना को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रेषित किया गया जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की वेबसाइट http://www.uppcb.com/pdf/ACTION-PLAN_100519.pdf पर भी अपलोड किया गया।

यह कि, यह कि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 के द्वारा "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" का पुनर्गठन किया गया।

यह कि, प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों के वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बनायी गयी कार्ययोजना के अर्न्तगत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कार्यबिन्दु तथा इसके क्रियान्वयन की समयसीमा निर्धारित करते हुये प्रदेश के संबंधित जिम्मेदार विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं यथा नगर विकास विभाग, ट्रान्सपोर्ट विभाग, पी0डब्लू0डी0, एन0एच0ए0आई0, यातायात, फूड एवं सिविल सप्लाइ, विकास प्राधिकरण/आवास विकास, वन, कृषि, औद्योगिक विकास, आयल कम्पनी/सी0एन0जी0, गृह, एन0एम0सी0जी0, जिला प्रशासन, वाहन निर्माता कम्पनी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे, सिचाई विभाग एवं उद्यान विभाग को कार्ययोजना के अर्न्तगत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इनसे संबंधित कार्यबिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

यह कि, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-एन0जी0टी0130(2) 55-पर्या-2-2019 /09 (रिट)/2016 दिनांक 11.04.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन/अनुपालन हेतु प्रदेश के संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किये गये हैं।

यह कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-681/2018 में दिनांक 20.11.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्मित कार्ययोजना के अर्न्तगत निर्धारित किये गये कार्यबिन्दुओं की माइक्रोप्लानिंग किये जाने के संबंध में पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष : 522-2720831, 2720828

फैक्स : 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

gomti.Letter head 25-05-2016

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.uppcb.com


"With regard to direction No.(VIII), there is compliance by 38 cities. Let the States/UTs ensure compliance with regard to the remaining cities within by 30.06.2020. In default, the States/UTs will be liable to pay@Rs. 5 lakhs per month till compliance. The compensation may be recovered by the States/UTs from the erring officers and appropriate entries may also be made in the ACRs of the concerned Heads of the Departments";

अतएव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1. यह कि, कार्य योजना के अंतर्गत यातायात पुलिस निदेशालय, उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित सभी कार्य बिन्दुओं के संबंध में 02 माह के अन्दर माइक्रोप्लानिंग की जाए तथा माइक्रोप्लान की प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।
2. यह कि, कार्य योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कार्य बिन्दुओं का प्रभावी क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाये।
3. यह कि, कार्य योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्य बिन्दुओं के संबंध में की गयी कृत कार्यवाही की मासिक प्रगति आख्या उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा विकसित "Environmental Compliance portal" "<http://www.upecp.in>" पर अपलोड किया जायेगा तथा इसकी प्रति सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" को प्रेषित की जायेगी।


उक्त निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें।


भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, आगरा, प्रयागराज, सोनभद्र (अनपरा), बरेली, फिरोजाबाद, अमरोहा (गजरौला), गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, बुलन्दशहर (खुर्जा), लखनऊ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोयडा), रायबरेली एवं वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, प्रयागराज, सोनभद्र (अनपरा), बरेली, फिरोजाबाद, बिजनौर (गजरौला), गाजियाबाद, झांसी, कागपुर, बुलन्दशहर (खुर्जा), लखनऊ, मुरादाबाद, नोयडा, रायबरेली एवं वाराणसी।


सदस्य सचिव


04/21/2020

Regional Office
U.P. Pollution Control Board, Noida, Gautambudh Nagar
 Details of Air Pollution Red Category Industries situated in Noida Gautambudh Nagar

Sr. no.	Name of the Industry	Address	District	category of Industry (Paper/ Electroplating/ Dyeing/ Sugar/ Dist. Etc.)	Sources of Air Pollution	APCS installed	Type of Fuel & consumption per Day	Scale of operation (L/M/S)
1	Cosmo Industries,	C-44, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 1 TPH	Installed	Bio Mass - 500 kg/day	Small
2	Dalip Enterprises,	D-87, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Only DG Set	Installed	HSD - 50 ltr/day	Small
3	Haldiram Snacks (P)Ltd.,	A-11, Sector-68, Noida	G.B. Nagar	Food Items	Boiler 3.5 TPH & 3 nos thermopack 20 Kcal/hr	Installed	PNG - 1700 SCM/day	Medium
4	Haldiram Snacks (P)Ltd.,	C-3, Sector-67, Noida	G.B. Nagar	Food Items	Thermopack 11 nos.	Installed	PNG - 1200 SCM/day	Medium
5	Haldiram Snacks (P)Ltd.,	A-2-4, Sector-65, Noida	G.B. Nagar	Food Items	Boiler 2 TPH & 2.8 TPH	Installed	PNG - 300 SCM/day	Medium
6	Haldiram Snacks (P)Ltd.,	B-1, Sector-63, Noida	G.B. Nagar	Food Items	Boiler 3 TPH & 6 TPH	Installed	PNG - 1500 SCM/day	Medium
7	J.P.C.,	B-4, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler - 4 TPH & thermopack 15 lKcal/hr	Installed	PNG - 2000 SCM/day	Medium
8	Karika India Pvt Ltd	B-126, Sector-5, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 0.6 TPH 2 nos	Installed	HSD - 500 ltr/day	Small
9	N.K. Dyeing	C-170, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 1.5 TPH	Installed	Bio Mass - 1 MT/day	Small
10	Parag Dairy,	B-219, Phase-II, Noida	G.B. Nagar	Dairy	3 nos Boiler	Installed	PNG - 4100 m ³ /month	Medium
11	S.S. Processors Pvt Ltd.	A-43, Sector-5, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 2 TPH	Installed	Bio Mass - 2 MT/day	Small
12	Samtex Desinz (Formerly- Nalini Silk Mills),	Plot No.-A-36, Phase-II, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 5 TPH & thermopack 15 lKcal/hr	Installed	Bio Mass - 5 MT/day	Medium
13	Sandeep Paper Mills (P) Ltd,	A-20, Sector-6, Noida	G.B. Nagar	Pulp and Paper	Boiler 8 TPH	Installed	Coal - 16 MT/Day	Medium
14	Sanidhya Engineers (P) Ltd.,	D-43, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 0.2 TPH	Installed	PNG - 300 kg/day	Small
15	Satguru Processor,	C-160, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 01 TPH	Installed	Bio Mass - 500 kg/day	Small
16	Sham Dyers	B-24, Sector-4, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 850 & 600 Kg/hr.	Installed	PNG - 65 SCM/Hr	Small
17	Soni Dyeing	C-190, Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 2 TPH	Installed	Bio Mass - 400 kg/day	Small
18	Super Fine Processors (P) Ltd.,	C-36, Sector-8, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Boiler 0.4 TPH	Installed	LPG - 190 kg/day	Small
19	The Ganesh Hosiery Industries,	F-67, Sector-11, Noida	G.B. Nagar	Dyeing	Only DG Set	Installed	HSD - 100 ltr/month	Small
20	Savancia Formage & Dairy India pvt	A-41,42, Phase-2, EXT., Hosiery Complex, Noida	G.B. Nagar	Dairy Product	Boiler - 2.0 TPH & 850K.G./hr	Installed	PNG - 35 SCM/day	Medium

कार्यालय वरि० परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)

सैक्टर-39, नौएडा ।

पत्र संख्या: नौएडा/व०प०अ०(जन स्वा०)/2020/ 97/


दिनांक 20/8/20

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-12/1, सैक्टर-1,
नौएडा, गौतमबुद्धनगर

विषय:- नौएडा क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटर्स की सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।
संदर्भ:- 407/सा०पत्रां०-94/2020 दिनांक 07.08.2020

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अन्तर्गत नौएडा क्षेत्र के बल्क वेस्ट जनरेटर्स से सम्बंधित सूचनाये नियत प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त के क्रम में नौएडा क्षेत्र के अन्तर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर्स का विवरण नियत प्रारूप में भर कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है । उक्त सूचना ro_noida@uppcb.com पर भी ई-मेल कर दी गई है ।

अंलग्नता- उपरोक्तानुसार


(एस०सी० मिश्रा)
वरि० परियोजना अभियन्ता
(जन स्वास्थ्य)
नौएडा ।

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ ।
2. स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी०) महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. विशेष कार्याधिकारी (आई/टी) को सूचनार्थ ।
4. परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)- I/II को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

वरि० परियोजना अभियन्ता
(जन स्वास्थ्य)
नौएडा ।

AEE
ton
per
25/8

S.No.	Name of ULB	District	RWA (Resident welfare association)					Gated Community					Hotel & Restaurant				
			Name/Location	Quantity of Waste Generated (Kg/Day)	Mode of Waste Disposal/Composting/Waste Treatment Unit/Local Body/Other Agency	Quantity of waste disposed (in Kg) from March-2019 to 31 July 2020)	Status of Authorization	Name/Location	Quantity of Waste Generated (Kg/Day)	Mode of Waste Disposal/Composting/Waste Treatment Unit/Local Body/Other Agency	Quantity of waste disposed (in Kg) from March-2019 to 31 July 2020)	Status of Authorization	Name/Location	Quantity of Waste Generated (Kg/Day)	Mode of Waste Disposal/Composting/Waste Treatment Unit/Local Body/Other Agency	Quantity of waste disposed (in Kg) from March-2019 to 31 July 2020)	Status of Authorization
120	Noida	GB Nagar															
121	Noida	GB Nagar															
122	Noida	GB Nagar															
123	Noida	GB Nagar															
124	Noida	GB Nagar															
125	Noida	GB Nagar															
126	Noida	GB Nagar															
127	Noida	GB Nagar															
128	Noida	GB Nagar															
129	Noida	GB Nagar															
			Total RWA = 83					Total AOA Highrise = 129					Total Hotel & Restaurant = 24				

APE (PH)

Bhishik
APE (PH) II

PE (PH)

आर० के० शर्मा

परियोजना अभियन्ता
जन स्वास्थ्य विभाग-II, नौराज

SE (PH)

Senior Project Engineer

(Public Health)

NOIDA

(31)

Received
14-7-20

OFFICE OF THE SENIOR PROJECT ENGINEER

PUBLIC HELATH, SECTOR-39, NOIDA

Letter No. Noida/SPE(PH)/2020/803
Dated: 13/7/20

President/ Secretary/ Director/ Owner
Resident Welfare Association/ Bulk Waste Generator
Sagar Apartments Sec-50
Noida

Subject: Notice in compliance with Solid Waste Management Rules, 2016

Sir,

Please refer our previous communication issued vide our letter # **Noida/ SPE/ PHD/ 2018/ 224** dated **11/06/2018** and also refer the rules below to ensure mandatory compliance with Solid Waste Management Rules, 2016, at your respective end:

1. Under the said rule definition of **Bulk Waste Generator** has been defined under Rule: 3 Sub-rule # 8 as "Any buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadium and sports complexes having an average waste generation rate exceeding **100Kg per day**".
2. Further under the **Rule # 4 Duties of waste generators** have been defined as under:
Every waste generator shall:
 - s) Segregate and store the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous wastes in suitable bins and handover segregated wastes to authorized waste pickers or waste collectors as per the direction or notification by the local authorities from time to time;
 - t) Wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material as instructed by the local authorities and shall place the same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste;
 - u) Store separately construction and demolition waste, as and when generated, in his own premises and shall dispose-off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; and
 - v) Store horticulture waste and garden waste generated from his premises separately in his own premises and dispose of as per the directions of the local body from time to time.
 - w) No waste generator shall throw, burn or bury the solid waste generated by him, on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.
 - x) All waste generators shall pay such user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies.
3. Further Sub-rule # 7 says that "All gated communities and institutions with more than **5,000SqM** area shall, within one year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body, ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed-off through composting or bio-methanation within the premises as far as

possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.”

4. Sub-rule # 8 says that “All hotels and restaurants shall, within one year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body ensure segregation of waste at source as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed-off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.”

In continuation to above Hon’ble NGT has also taken a serious note on non-compliance with Solid Waste Management Rules, 2016 at resident’s level. In compliance with the said rules, Hon’ble tribunal has passed a direction on dated: 24-10-2017 in Petition No. M.A. No. 1265/ 2017; 1038/ 2017 & O.A. No. 513/ 2017 which says “*We also direct the NOIDA and all the Residential Societies in NOIDA to ensure that the municipal solid waste is segregated and then alone it should be lifted from the said site in compliance to the Rules of MSW, 2016.*”

Also refer Hon'ble NGT order dated 31.08.2018 O.A. No. 606/2018 and in a matter of petitioner Mrs. Almitra H. Patel O.A. No. 199/ 2014 where direction to Bulk Waste Generator for setting up of decentralized waste processing facilities in compliance with SWM Rules, 2016 has been directed.


In view of the above said compliances, Authority direct all the concerned waste generators may ensure necessary compliance at their end with immediate effect as deadline as scheduled under the SWM Rules, 2016 has already lapsed. Thus, compliances now need to be ensured by or before **June 30, 2019** after which the Authority will stop services of waste collection from your end and will initiate penal action against the violators of these rules.

Yours faithfully,

(S C Mishra)
Sr. Project Engineer
(Public Health)

Copy to –

1. PS to CEO noida for kind information pl.
2. PS to ACEO (P) noida for kind information pl.
3. OSD (T/I) for kind information pl.
4. P.E. (P.H.)-II necessary action.
5. Regional Officer, UPPCB, Noida


Sr. Project Engineer
(Public Health)
Noida

Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)

Awareness Generation (IEC Activities)

S.No.	Activity	No.	Period	Coverage
1	Advertisement in Print Media (Leading News Papers)	Weekly	July to August, 2021	75 Districts
2	Million Farmers Schools	15000	July, 2021	10 Lac Farmers
3	Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC	2	July & August, 2021	All Districts
4	State Level Kharif Gosthi	1	June 2021	Headquarter
5	District Level Kharif Gosthi	75	June –July 2021	75 Districts
6	Bolck Level Kharif Gosthi	821	July to August 2021	821 Blocks
7	Fixing of Hoardings	1328	Up to 31 August, 2021	At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump
8	Audio Visual Clips on TV	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Doordarshan & other popular Channels.
9	Broadcast of Radio Jingles	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Akashwani & other FM Channels.
10	Display of Audio Video Film	15	July to August 2021	To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes
11	Distribution of Leaflets	10 lac	May to July, 2021	75 Districts
12	Demonstration of implements	500 Ha.	October, 2021	75 Districts
13	Training of progressive farmers	24,333	July to Nov., 2021	1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK)